



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18--मार्च 24, 2006 (फाल्गुन 27, 1927)  
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18--MARCH 24, 2006 (PHALGUNA 27, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2006

सं. 129, दिनांक 22 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव (तदर्थ) श्री डी पी सिंह का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए वर्ष 1997 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 4/10/2005-सी एस-I (i) के अनुसरण में 1.7.1997 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख पर ध्यान दिए बिना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. में निर्दिष्ट अनुबन्ध-III में दिए गए क्रम के बाद आएगी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री बी.के. बैनर्जी को 15.12.2005 के पूर्वाह्न से 30.6.2006 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में पूर्णतया

तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री बी.के. बैनर्जी की पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रपति, एडीजी टीएसी सेना मुख्यालय के गाईस, आई सी-47634 ले. कर्नल डी.पी.के. पिल्लै को 2 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 13,500-400-17,100/- रु. के वेतनमान में एक वेतन जोड़कर प्रतिनियुक्ति आधार पर रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (रक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. विजयराघवन  
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 130, दिनांक 23 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1982) के अधिकारी श्री जी.एस. सूद, को दिनांक 02 जनवरी, 2006 के

पूर्वाह्न से आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जो पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में वित्त प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1979) के अधिकारी श्रीमती शोभना जोशी, को दिनांक 02 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जो पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में वित्त प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सं. 131, दिनांक 27 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उसके 01 सितम्बर 2001 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये और वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 07 नवम्बर, 1997 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 04 सितम्बर, 2004 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उसकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एस एस-37971, आई सी सं. 56317एफ, नरेश कुमार, इंजीनियर्स

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 06 मार्च 2001 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अन्तर्गत पदोन्नति के लिये और वेतन वृद्धि के लिये दिनांक 09 मई 1997 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेन्ट के पद में तारीख 06 मार्च 2004 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जायेगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एस एस-37623, आई सी सं. 56169एफ, संदीप सिंह सिंधु, ई एम ई

एस एस-37624, आई सी सं. 56170डब्ल्यू, प्रीतपाल सिंह, इंजीनियर्स

एस एस-37625, आई सी सं. 56171वाई, शिव मंगल सिंह, सिग्नल

एस एस-37627, आई सी सं. 56172एफ, संदीप मेहरा, सिग्नल

श्रवण कुमार  
एम एल एन  
कर्नल एम एस-7

सं. 132, दिनांक 22 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के रक्षा मंत्रालय के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री ओ. पी. चौहान की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ

आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में की गई नियुक्ति को 1.1.2006 से 30.6.2006 तक की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में और आगे बढ़ाते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर जारी रखी गई श्री चौहान की पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जी. विजयराघवन  
अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 133, दिनांक 23 फरवरी 2006--राष्ट्रपति महोदय स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अधीन निम्नलिखित स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति 24 अगस्त 2005 से 23 फरवरी 2006 तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं :-

नाम	जन्म तिथि
श्री के.सी. भारद्वाज,	22 फरवरी 1959
श्री योगेश द्विवेदी,	01 जनवरी 1964
श्री प्रभु दयाल,	10 मार्च 1946
श्री एम शाम राज,	25 सितम्बर 1949
श्री पी. जे. रॉस,	19 जून 1967
श्रीमती अनीता कुमारी,	01 जनवरी 1967
श्री आलोक गर्ग,	12 जून 1963
श्री देश राज,	05 अक्टूबर 1955
श्री ए के एल दास,	26 जनवरी 1966
श्री गुलशन राय,	30 अक्टूबर 1968
श्री पी पी मुदगल,	05 अगस्त 1900
श्री चिरंजीव सिंह,	13 जुलाई 1965
श्री के एन प्रसाद,	26 अक्टूबर 1965
श्री एस के जैन,	11 दिसम्बर 1963
श्री दीपक कुमार दास,	01 अगस्त 1966
श्री रजनी मोहन गुप्ता,	10 जनवरी 1949

2. ये नियुक्तियां अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई हैं और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने पर पूर्व सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती हैं।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना शाखा  
नियमित सेना  
सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 134, दिनांक 22 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार लिपिक जी डी/एस डी

नायब सूबेदार प्रशान्ता कुमार दास (जेसी-642634पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार श्याम किशोर पाण्डे (जेसी-641832एन), 01 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 08 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस जया बालन (जेसी-642135ए), 01 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 03 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ए राजेन्द्रन (जेसी-642220एच), 07 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 03 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अजय कुमार रथ (जेसी-642696पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार अजय कुमार दास (जेसी-642635एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सोमबीर (जेसी-642262पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार के जी (जेसी-642264ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जयपाल सिंह रावत (जेसी-642266एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लावेश कुमार पाथरिया (जेसी-642267एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मोतीलाल तुर्की (जेसी-642268डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार एस कथिवेल्लु (जेसी-642269वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जान सिंह (जेसी-642270एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-642271डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार सुब्रता मण्डल (जेसी-642687एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चित्तरंजन सामल (जेसी-642688डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बालन कारायी (जेसी-642689वाई), 03 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अपूर्जा नाग (जेसी-642690एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मेघ राज (जेसी-642691डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रनव कुमार नन्दी (जेसी-642692वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक जी डी/एस डी

हवलदार ताराचन्द (सं. 6377755एफ अब जेसी-663620एच), 05 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 6377846एल अब जेसी-663621एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार भरत सिंह (सं. 6377871के अब जेसी-663622एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार मधुसुदन कर्माकर (सं. 6377875ए अब जेसी-663623डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 6377959एन अब जेसी-663624वाई), 03 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पवन सिंह राणा (सं. 6377983के अब जेसी-663625एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सुरेन्द्र पाण्डे (सं. 6377984एम अब जेसी-663626के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार ओन्कार सिंह (सं. 6378002एफ अब जेसी-663627एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सत्यवीर यादव (सं. 6378004एम अब जेसी-663628पी), 10 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पुतुल सदानीदार (सं. 6377663पी अब जेसी-663668डब्ल्यू), 28 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजवीर सिंह शेखावत (सं. 6378014डब्ल्यू अब जेसी-663669वाई), 20 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम लाल (सं. 6377537एच अब जेसी-663670एन), 21 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 6378102एम अब जेसी-663671डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुरजीत सिंह सलारिया (सं. 6378108एन अब जेसी-663672वाई), 20 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निहाल सिंह (सं. 6378123एच अब जेसी-663673एफ), 21 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

हवलदार सुन्देस्वरन यू (सं. 14475685पी अब जेसी-663604एल), 17 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार किशोर कुमार त्रिपाठी (सं. 6376363एफ अब जेसी-663605एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार राम यश पटेल (सं. 1468778एफ अब जेसी-663629एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 13745494एन अब जेसी-663630एम), 02 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह चरक (सं. 6377200ए अब जेसी-663631पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार श्याम सुन्दर बी जी (सं. 14243821एच अब जेसी-663674के), 16 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार नन्दन सिंह बिष्ट (सं. 6378647के अब जेसी-663675एम), 12 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मोहर सिंह लमोरिया (सं. 13965698एल अब जेसी-663676पी), 09 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शख कुमार नायक (सं. 6381290के अब जेसी-663677एक्स), 12 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-296294एक्स), 16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

सूबेदार बी थंगा राज (जेसी-296862एक्स), 05 दिसम्बर 2005/11 नवम्बर 2005×

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार शंभू ठाकुर (जेसी-298850एफ), 09 दिसम्बर 2005/31 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-298147एन), 29 सितम्बर 2005/31 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार वाचाकल शिवीजी बापू (जेसी-298098डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-298275एल), 10 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार उमा शंकर (जेसी-298641के), 14 नवम्बर 2005/19 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार रविंदर सिंह (जेसी-298092पी), 02 दिसम्बर 2005/25 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार एम राजेंद्रन (जेसी-298146एल), 16 नवम्बर 2005/26 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार इंद्रपाल सिंह (जेसी-298074एम), 26 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार देवा नन्द (जेसी-298212एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार महेंदर सिंह (जेसी-298447पी), 24 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-298288एच), 10 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार सीताराम लोमरोर (जेसी-298340ए), 23 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005×

नायब सूबेदार देव कुमार मिश्रा (जेसी-297419डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार राम शंकर (जेसी-298049वाई), 12 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार भवातरन प्रमानिक (जेसी-298112एक्स), 02 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार रमेश चंद्र सोलंकी (जेसी-298189ए), 23 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार कृष्णा प्रताप सिंह (जेसी-298308एल), 29 नवम्बर 2005/03 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-298076एक्स), 01 जनवरी 2006

सब्सटेंटिव सूबेदार (टीआईएफसी.) के पद में

नायब सूबेदार पुरुषोत्थम (जेसी-298784के), 01 अक्टूबर 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह बघेल (जेसी-297625ए), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006×

सब्सटेंटिव सूबेदार (धर्मशिक्षक) के पद में

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-296361एक्स), 06 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005×

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम. एम. सिंह  
अवर सचिव

-----

सं. 135, दिनांक 23 फरवरी 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुरेंद्र कृष्णाराव येरमुलकर (जेसी-347177एक्स), 12 अगस्त 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) करन सिंह (जेसी-347168डब्ल्यू), 07 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रामयश सिंह (जेसी-347167एन), 03 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रामफल सिंह (जेसी-347249डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) बीरपाल सिंह (जेसी-347240एफ), 03 सितम्बर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सोमन पिल्ले जी (जेसी-347171डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सत्य नारायण दलोहर (जेसी-347198एन), 03 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) अमी चंद (जेसी-347298वाई), 15 अगस्त 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) श्याम लाल (जेसी-347591डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) जनरैल सिंह (जेसी-347201एच), 17 अगस्त 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम पाल (जेसी-347209पी), 21 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) कल्याण सिंह (जेसी-347226पी), 13 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) करमजीत सिंह (जेसी-347413एन), 15 सितम्बर 2005

सूबेदार (जी डी) हरबंस सिंह (जेसी-347448के), 24 सितम्बर 2005

सूबेदार (जी डी) गुरदीप सिंह (जेसी-347354एम), 04 अगस्त 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) महेश कुमार (जेसी-348053पी), 07 जुलाई 2003

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) देव राज (जेसी-348565एफ), 13 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरस्वरूप सिंह वर्मा (जेसी-348531एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) तारा चंद (जेसी-348535के), 13 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राज बली (जेसी-348532डब्ल्यू), 09 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) धर्मवीर त्यागी (जेसी-348595वाई), 17 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जय पाल सिंह (जेसी-348566के), 13 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) शिवनाथ (जेसी-348554पी), 05 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम नाथ (जेसी-348543एच), 03 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजेंद्र कुमार (जेसी-348567एम), 10 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जय सिंह सेहरावत (जेसी-348547वाई), 17 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जम्बु लाल (जेसी-348541एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) लखन सिंह (जेसी-348584एम), 07 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहिंदर सिंह राना (जेसी-348552के), 22 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) अडसुल विठल श्रीरंग (जेसी-348632एफ), 06 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) फिलिप एम जी (जेसी-348587ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) लाला राम सेन (जेसी-348574एच), 21 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) होशियार सिंह (जेसी-348555एक्स), 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) परमिंदर सिंह (जेसी-349190ए), 19 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) काका सिंह (जेसी-349138एक्स), 16 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) सतनाम सिंह (जेसी-349157एच), 28 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) मदन सिंह (जेसी-348806डब्ल्यू), 15 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) मोहम्मद सनउल्लाह अनसारी (जेसी-349160एच), 28 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) ओम प्रकाश (जेसी-349151एफ), 30 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) चैन सिंह (जेसी-349141एक्स), 11 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) साबले बालु सहदु (जेसी-349161एल), 18 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) माने मछिंद्र नाथ मारुती (जेसी-349137पी), 26 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) रघुवीर सिंह (जेसी-349153एम), 29 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) कुंभार बिलास ईश्वरा (जेसी-349187ए), 27 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) बलदेव सिंह (जेसी-349142ए), 08 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) प्यारा सिंह (जेसी-349189एल), 17 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) राम किशोर (जेसी-349126एच), 16 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) देवी प्रसाद (जेसी-349166के), 17 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) राधा मोहन ठाकुर (जेसी-349121के), 10 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) शेलार सुरेश मारुती (जेसी-349152के), 18 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) कृष्ण कुमार सिंह भदुरिया (जेसी-349168पी), 19 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) राउसो गणपती भोसले (जेसी-349176एन), 18 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) कमल सिंह (जेसी-349154पी), 22 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) शिंदे नारायण माधव (जेसी-349150वाई), 23 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (जी डी) मोहम्मद अली (जेसी-349156ए), 26 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) सिया राम (जेसी-349178वाई), 13 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) रन सिंह (जेसी-349202के), 12 अगस्त 2005

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) राजबीर यादव (जेसी-348840डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (एस के टी) महेश कुमार (जेसी-348725डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) भुपेंद्र सिंह (सं. 1573323के अब जेसी-350129एच), 08 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) हरी कुमार के (सं. 1573342पी अब जेसी-350130एक्स), 03 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) सुरजीत राजपुत (सं. 1573351डब्ल्यू अब जेसी-350131ए), 21 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) कुंवर सिंह (सं. 1573376एच अब जेसी-350134एन), 19 सितम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) अनिल कुमार शर्मा (सं. 1573396डब्ल्यू अब जेसी-350135डब्ल्यू), 07 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) अनिल कुमार शर्मा (सं. 1573400एन अब जेसी-350136वाई), 22 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) मान सिंह चौहाण (सं. 1573366वाई अब जेसी-350146एच), 04 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) राधे सिंह (सं. 1573428एन अब जेसी-350147एल), 19 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) अमरिंक सिंह (सं. 1584465एफ अब जेसी-350148एन), 11 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) पवन किशोर शर्मा (सं. 1584640एल अब जेसी-350149डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) पवार चंद्रकांत दादाजी (सं. 1572394वाई अब जेसी-350150एल), 03 नवम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) भीखम सिंह (सं. 1573294ए अब जेसी-350151एन), 02 नवम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) सत्यपाल सिंह (सं. 1573429डब्ल्यू अब जेसी-350152डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) सुर्यभान सिंह (सं. 1573457एच अब जेसी-350153वाई), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) महावीर सिंह (सं. 1573509एन अब जेसी-350154एफ), 17 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क जी डी) ओमप्रकाश कुशवाहा (सं. 1573650पी अब जेसी-350155के), 13 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) ईश्वर चंद (सं. 1573852डब्ल्यू अब जेसी-350156एम), 02 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) तसदिक (सं. 1558500ए अब जेसी-350132एच), 16 अगस्त 2005

हवलदार (जी डी) धर्म सिंह (सं. 1559744एफ अब जेसी-350133एल), 22 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) दर्शन सिंह (सं. 1559902एल अब जेसी-350137एफ), 22 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) औंटे सुरेश श्रीपती (सं. 1557301एफ अब जेसी-350138के), 29 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) जहान अली (सं. 1557809एल अब जेसी-350139एम), 15 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) तोंडे चंद्रकान्त विठोबा (सं. 1559205एल अब जेसी-350140एफ), 21 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) सुरेंद्रपाल सिंह (सं. 1559250एक्स अब जेसी-350141के), 21 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) बलबीर सिंह (सं. 1559394ए अब जेसी-350142एम), 21 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) हरमोहिंदर सिंह (सं. 1569854के अब जेसी-350143पी), 20 सितम्बर 2005

हवलदार (जी डी) सुखचैन सिंह (सं. 1569757एम अब जेसी-350144एक्स), 02 अक्टूबर 2005

हवलदार (जी डी) गणपत बालासाहेब मांडगे (सं. 1574587एक्स अब जेसी-350145ए), 20 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) कन्हैया सिंह (सं. 1579735एफ अब जेसी-350128ए), 05 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर जी डी के मूल रैंक में

सूबेदार जी डी विजयन नायर वी (जेसी-225774एक्स), 07 नवम्बर 2005

सूबेदार जी डी रवि कुमार (जेसी-305079डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2005

सूबेदार जी डी जैन एम एस (जेसी-305108ए), 02 नवम्बर 2005

सूबेदार जी डी के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जी डी टोमी मेथ्यू (जेसी-307282एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी शाम गोमज ओ (जेसी-307284डब्ल्यू), 28 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी वी मरियादास (जेसी-307296एल), 02 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी ए आरोकिया दास (जेसी-307299वाई), 14 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी एस दिनाकरन (जेसी-307304वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी केथवासीलन (जेसी-307306के), 02 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी मेथ्यू के टी (जेसी-307308पी), 14 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी के सुर्या प्रकासा राव (जेसी-307309एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी ग्रीसन नायर आर (जेसी-307310एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी के जयपाल (जेसी-307311पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी बाबु राजन ए (जेसी-307323के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी प्रभाकरन पी वी (जेसी-307324एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी कृष्णा कुमार के (जेसी-307328एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी राधाकृष्ण पिल्लै के (जेसी-307330ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी वी एम सुब्रमनियम (जेसी-307338एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी मेथ्यू वार्धोस (जेसी-307344ए), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार मेजर जी डी के मूल रैंक में

सूबेदार जी डी एम गोविंद राज (जेसी-305010एम), 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार जी डी वी सुदेरेसन (जेसी-305045एच), 10 अक्टूबर 2005

सूबेदार जी डी के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जी डी ए वेलाउधन (जेसी-307221एन), 23 जून 2005

नायब सूबेदार जी डी योहन्नन डी (जेसी-307224एफ), 29 जुलाई 2005

नायब सूबेदार जी डी सी लारेंस (जेसी-307246ए), 06 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जी डी आजाजालम (जेसी-307281एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जी डी तामिलसेल्वाम एस (जेसी-307286एफ), 03 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी राधाकृष्ण पी पी (जेसी-307289पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी पी सुब्रमनियम (जेसी-307292पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी वी चंद्राबाबु (जेसी-307293एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी एम वेंकटाचलम (जेसी-307294ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी के सेट्टु (जेसी-307295एच), 26 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी जी मोहन राव (जेसी-307297एन), 24 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी के राजेंद्रन (जेसी-307298डब्ल्यू), 23 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी डी सम्पथ (जेसी-307300एच), 27 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी राजेंद्रन पी (जेसी-307302एन), 19 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी आर आनंदन (जेसी-307303डब्ल्यू), 29 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जी डी मुजीब रेहमान के (जेसी-307435के), 01 अक्टूबर 2005

बंगाल इंजीनियर गुप

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

आर आर टी सुखविन्दर सिंह (सं. 329494डब्ल्यू अब जेसी-32949डब्ल्यू), 11 जून 2005

नायक गुरमीत सिंह (सं. 1485246एक्स अब जेसी-329719एन), 11 जून 2005

नायक मनजीत सिंह (सं. 1487872ए अब जेसी-329720एच), 11 जून 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार सुरेश बहादुर सिंह (सं. 1463779ए अब जेसी-329690डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2005@

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 1469815एम अब जेसी-329691वाई), 05 सितम्बर 2005#

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 1471088एच अब जेसी-329692एफ), 01 सितम्बर 2005#

हवलदार कमलेश कुमार सिंह (सं. 1473264एन अब जेसी-329693के), 01 अगस्त 2005\$

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं. 1473311ए अब जेसी-329694एम), 01 अगस्त 2005\$



हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 1487477एम अब जेसी-329695पी),  
02 सितम्बर 2005\*

हवलदार यौगेन्द्र सिंह (सं. 1467767एन अब जेसी-329696एक्स),  
02 सितम्बर 2005\*

हवलदार कुन्ति लाल (सं. 1468872एल अब जेसी-329697ए),  
14 सितम्बर 2005\*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 1469974एन अब जेसी-329698एच),  
05 सितम्बर 2005\*

हवलदार रमेश प्रसाद सिंह (सं. 1468446एक्स अब  
जेसी-329699एल), 01 सितम्बर 2005\*

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 1468956वाई अब जेसी-329700पी),  
02 सितम्बर 2005\*

हवलदार नगेन्द्र पाण्डे (सं. 1471199वाई अब जेसी-329701एक्स),  
01 सितम्बर 2005\*

हवलदार ब्रिन्दा सिंह (सं. 1471197पी अब जेसी-329702ए),  
01 सितम्बर 2005\*

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 1471445ए अब जेसी-329703एच),  
07 सितम्बर 2005\*

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 1470573एल अब जेसी-329704एल),  
01 सितम्बर 2005\*

हवलदार मोहिन्दर सिंह लुन्धी (सं. 1471650एफ अब जेसी-  
329705एन), 03 सितम्बर 2005\*

हवलदार सुनील कुमार तोमर (सं. 1471615वाई अब जेसी-  
329706डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005\*

हवलदार राज नारायण पाण्डे (सं. 1471771एन अब जेसी-  
329707वाई), 05 सितम्बर 2005\*

हवलदार राम व्यास सिंह चौहान (सं. 1471779पी अब जेसी-  
329708एफ), 03 सितम्बर 2005\*

हवलदार जगदीश सिंह कपालिया (सं. 1471879ए अब जेसी-  
329709के), 01 सितम्बर 2005\*

हवलदार सुशील कुमार गहलोत (सं. 1465565एच अब जेसी-  
329710वाई), 07 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार नवल किशोर मिश्रा (सं. 1471334एच अब जेसी-  
329711एफ), 18 अक्टूबर 2005\*

हवलदार हाफिजुर रहमान (सं. 1471513एच अब जेसी-329712के),  
03 अक्टूबर 2005\*

हवलदार चन्द्रेश्वर मिश्रा (सं. 1471512ए अब जेसी-329713एम),  
29 सितम्बर 2005\*

हवलदार दिलीप कुमार मिश्रा (सं. 1471564डब्ल्यू अब जेसी-  
329714पी), 13 अक्टूबर 2005%

हवलदार गोलक चन्द्र मुद्गली (सं. 1464097एफ अब जेसी-329715एक्स),  
13 अक्टूबर 2005%

हवलदार जमदार बानरा (सं. 1470989एच अब जेसी-329716ए),  
15 अक्टूबर 2005%

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार ब्रजेश त्रिपाठी (सं. 1483866पी अब जेसी-329717एच),  
29 अगस्त 2005\$

हवलदार प्रदीप कुमार यादव (सं. 1483960वाई अब जेसी-  
329718एल), 16 अगस्त 2005\$

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2005)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2005)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2005)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 1468931एम अब जेसी-329721एल),  
14 नवम्बर 2005@

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 1466745एक्स अब जेसी-329722एन),  
14 नवम्बर 2005#

हवलदार दीपक कुमार एम.वी. (सं. 1472535एम अब  
जेसी-329723डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2005\$

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1467786एन अब जेसी-329724वाई), 05  
सितम्बर 2005@

हवलदार मन्जुर अंसारी (सं. 1464980एक्स अब जेसी-329725एफ),  
12 नवम्बर 2005\*

हवलदार उमेश चन्द्र (सं. 1471492एक्स अब जेसी-329726के), 05  
दिसम्बर 2005\*

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 1466286के अब जेसी-329727एम), 26  
अक्टूबर 2005\*

हवलदार विश्वनाथ सिंह (सं. 1471909एम अब जेसी-329728पी),  
24 नवम्बर 2005\*

हवलदार रणजीत सिंह खाती (सं. 1468977पी अब  
जेसी-329729एक्स), 28 अक्टूबर 2005\*

हवलदार शिव कुमार सिंह (सं. 1470862ए अब जेसी-329730एम),  
21 नवम्बर 2005\*

हवलदार चन्द्र बाबू के. (सं. 1470945एल अब जेसी-329731पी),  
12 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार उत्तम चरण पाल (सं. 1471910एफ अब जेसी-329732एक्स),  
17 नवम्बर 2005%

हवलदार रमैया सिंह (सं. 1471908के अब जेसी-329733ए),  
12 नवम्बर 2005%

हवलदार धरम वीर सिंह (सं. 1472063एच अब जेसी-329734एच),  
11 नवम्बर 2005%

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 1472062ए अब जेसी-329735एल),  
01 दिसम्बर 2005\*\*

हवलदार सत्य नारायण (सं. 1472065एन अब जेसी-329736एन),  
01 दिसम्बर 2005\*\*

हवलदार अवतार सिंह (सं. 1472066डब्ल्यू अब जेसी-329737डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2005\*\*

हवलदार दया चन्द्र पवार (सं. 1472222पी अब जेसी-329738वाई),  
05 दिसम्बर 2005\*\*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 1478470एफ अब जेसी-329739एफ),  
01 दिसम्बर 2005\*\*

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार अरविन्द बाबू बी.पी. (सं. 9511039एच अब  
जेसी-329740डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2005\*

हवलदार एम. वी. नारायण (सं. 9511286डब्ल्यू अब  
जेसी-329741वाई), 18 नवम्बर 2005\*

हवलदार अक्षय कुमार पाधी (सं. 9512041एम अब  
जेसी-329742एफ), 14 नवम्बर 2005\*

हवलदार चन्द्र शेखर (सं. 9512555के अब जेसी-329743के),  
14 नवम्बर 2005\*

हवलदार शैलेश कुमार पाठक (सं. 15375795एल अब  
जेसी-329744एम), 21 नवम्बर 2005\*

हवलदार डांगर सिंह (सं. 1486209डब्ल्यू अब जेसी-329745पी),  
16 नवम्बर 2005\*

हवलदार सोमपाल सिंह (सं. 1490112एच अब जेसी-329746एक्स),  
14 नवम्बर 2005\*

हवलदार राकेश चौधरी (सं. 15384237एल अब जेसी-329747ए),  
17 नवम्बर 2005\*

हवलदार पवन कुमार पाण्डे (सं. 6938831के अब जेसी-329748एच),  
03 दिसम्बर 2005\*

हवलदार अवधेश कुमार (सं. 1497418एम अब जेसी-329749एल),  
12 नवम्बर 2005\*

हवलदार खीम सिंह धगुना (सं. 1479577एच अब जेसी-329750ए),  
14 नवम्बर 2005\*

हवलदार कन्हई लाल स्वर्णकार (सं. 15370605के अब  
जेसी-329751एच), 16 नवम्बर 2005\*

हवलदार मनोज डोभाल (सं. 15385373एन अब जेसी-329752एल),  
16 नवम्बर 2005\*

हवलदार दक्षिणा मूर्ति एन (सं. 6937032पी अब जेसी-329753एन),  
18 नवम्बर 2005\*

हवलदार चौगले किशोर पिताम्बर (सं. 15393462एफ अब  
जेसी-329754डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2005\*

हवलदार गौरी शंकर पत्रा (सं. 1587617एच अब जेसी-329755वाई),  
16 नवम्बर 2005\*

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004)

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 फरवरी 2005)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 जुलाई 2005)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005)

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005)

रोजी शर्मा  
उप सचिव

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियर कोर

सं. 136, दिनांक 24 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, श्री अरूप दास अब  
सहायक कार्यपालक अभियंता को दिनांक 01 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से  
ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर नियुक्त  
करते हैं।

एन. के. कश्मीरा  
अवर सचिव

सं. 137, दिनांक 28 फरवरी 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एएमसी  
अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर के पद पर

रोशनी जगदीप अविचन्दानी (एमएस-13781एच) (एमआर-  
08101एच), एएमसी--04 जनवरी 2004

सुरेन्द्र कुमार पाण्डे (एमएस-13689वाई) (एमआर-08195एल),  
एएमसी--10 अक्टूबर 2003

राधवेन्द्र सिंह चित्तोड़िया (एमएस-14356वाई) (एमआर-08231एल),  
एएमसी--26 फरवरी 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा  
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द  
किया जाता है।)

दरिन साका (एमएस-13893एक्स) (एमआर-08202डब्ल्यू),  
एएमसी--16 जुलाई 2003

राजेश कामरान  
ब्रिगेडियर  
डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 138, दिनांक 27 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान से मेजर

आई सी-58646 विवेक डबास, एओसी-12 जून 2005

अजय गोयल  
उप निदेशक एम एस 8-सी

#### वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 139, दिनांक 24 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति  
करते हैं :-

1. मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक प्रभाग, ओझर के कनिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी, श्री पी. नाहा 24 जून 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय,  
कोरापुट में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

2. वै.गु.आ.मनि. मुख्यालय, नई दिल्ली के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,  
श्री ऋषि कुमार 25 जून 2004 (पूर्वाह) से वै.गु.आ.मनि. मुख्यालय, नई  
दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

3. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्री टी  
एस वासु 29 जून 2004 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.कार्यालय बंगलूर में वरिष्ठ  
वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

4. मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक प्रभाग, ओझर के कनिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी, श्री आर वी दीक्षित 26 जून 2004 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. के  
कार्यालय, नासिक प्रभाग, ओझर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के  
रूप में।

5. मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक प्रभाग, ओझर के कनिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी, श्री देवेन्द्र सिंह, 12 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय,  
गाजियाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

6. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्री  
केसी पाधी, 13 सितम्बर 2004 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय कोरवा में  
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

7. अलिस्टा, बंगलूर के श्री वाई एस आर शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,  
ग्रेड-I को दिनांक 15 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से अलिस्टा, बंगलूर में  
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

8. मु.नि.नि. कार्यालय, कोरापुट के श्री वी विजयकुमारन, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 15 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.  
कार्यालय कोरापुट में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

9. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के श्री के टी थामस, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 16 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.  
कार्यालय, बंगलूर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

10. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के श्री बी एन परमेश्वरन, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 16 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.  
कार्यालय, बंगलूर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

11. मु.नि.नि. कार्यालय, गाजियाबाद के श्री पी के कपूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 16 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.  
कार्यालय, गाजियाबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

12. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के श्री वी एल राजा, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 29 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मस्का, हैदराबाद  
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

13. वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली,  
के श्री पी एस सैलानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक  
15 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय,  
मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

14. मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक के श्री रंजीत सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक  
अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 16 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.  
कार्यालय, नासिक में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

15. मु.नि.नि. कार्यालय, (एच ए एल), हैदराबाद के श्री पी प्रभाकर  
राव, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 30 दिसम्बर 2005  
(पूर्वाह) से अलिस्टा, बंगलूर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

16. वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली,  
के श्री डी पी शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक  
22 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह) से वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय,  
मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

17. मु.नि.नि. कार्यालय, (एच ए एल), हैदराबाद के श्री ए के भट्टे,  
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I को दिनांक 30 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह)  
से अलिस्टा, बंगलूर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

वी. सेतुमाधवन  
अवर सचिव

नौसेना शाखा

सं. 140, दिनांक 28 फरवरी 2006--को महामहिम राष्ट्रपति, महोदय  
श्री एन डी आर्या, अनुवाद अधिकारी को पदोन्नति करके वरिष्ठ अनुवाद

अधिकारी (आर/ई) नियुक्त करते हैं। पदोन्नति की तिथि 15 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी।

वी राजा गोपालन  
निदेशक असैनिक कार्मिक

वायुसेना

सं. 141, दिनांक 27 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायुसेना  
उड़ान पायलट शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाइम स्केल) रैंक में

बी एस दौलत (13915), के सिंह (13947), आर खन्ना (14566), एम एस मेहता (14695), जे के उम्ल (15018), वी के दत्त (15193), एम एम गदकारी (15203), एस वी कोतारी (15208), जे सिंह (15419), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

आर के दूबे (15559), डी के यादव (15562), एस ए चक्रदेव (15568), बी बी एस मनि (15573), दिनांक 30 दिसम्बर 2004 से।

उड़ान पायलट शाखा

शाखा स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एस चतुर्वेदी (21720), एल सेहगल (21723), एस एस राजन (21728), दिनांक 08 फरवरी 2005 से।

वी सिंह (21537), दिनांक 14 मार्च 2005 से।

पी गुप्ता (17349), के एस रैना (17371), एस राज (18276), के वी आर राजू (18573), सी पदमानाभन (18583), ए सिंह (18588), पी एस जजमान (18804), एस एस पी राव (18820), एम राज (18834), एल जी सिंह (18841), वी एस मल्लिक (18843), एस आई कुमार (19159), पी एस साह (19202), के डी सिंह (19527), एच ए रथर (19863), एस धनकर (19865), एस एस शर्मा (19866), वी मोहिंदर (19867), आर वर्मा (19868), वी एस चौधरी (19869), एस खन्ना (19870) एल के चावला (19871), ए एस कुमार (19872), बी सिंह (19874), पी वी सतीश (19876), एस विश्वास (19878), जे वी एस गोरन (19879), वी कुमरा (19881), के काले (19883), जे सिंह (19885), ए के चौरसिया (19886), एस एम वाहिद (19887), एस के झा (19888), ई जे एन्थोनी (19892), ए के उपाध्याय (19893), एच एस कुलकर्णी (19894), एस के वर्मा (19895), एम चौधरी (19896), आर वी सिंधे (19897), एन कुमार (19898), एस प्रकाश (19899), आर पूरी (19900), आर वी शिवानन्दन (19901), एस डी रिज्जवी (19902), ए आर शेनडे (19904), एस आर राय (19905), पी सेन (19907), जे नरूला (19909), पी बक्सी (19911), पी रमेश (19912), ए शेट्टी (19913), आर वी आर प्रसाद (19914), आर के इथक्कात (19915), वी शर्मा (19916), डी ए कुलकर्णी (19917), आर पूरी (19919), एस के गिरी (19956), एम एम कुलकर्णी (19957), टी सिंह (19958), ए एम डीसूजा (19959), ए कौल (19960), जे वर्गीस (19961), एम कुमार (19964), एस मिश्रा (19965),

पी जोशी (19966), टी वी अन्नीकृष्णन (19967), एस टेनलेस (19970), एस मेहता (19971), वी चौधरी (19972), सी राज (19973), श्री रामसली (19974), के जे वी सिंह (20109), पी कुमार (20111), वी शन्याल (20112), ए एस गडे (20114), बी के शर्मा (20115), पी के सिंह (20116), वी यादव (20117), जी थोमस (20118), एस के सिंह (20119), एल वी मन्डलिक (20120), एन तलवानी (20121), सी सुब्रमन्यम (20122), एस रमन (20123), जी के मोहन (20124), वी के सिंह (20126), एम बन्धोपाध्याय (20127), एम एस देस्वाल (20131), वी शंकर (20132), पी ए वी राममुर्ती (20134), ए के भौमिक (20135), के वी एस एन मुर्ती (20136), एस श्रीधर (20138), ए चौहान (20139), एस नायर (20140), डी के सिंह (20142), एस वर्मा (20143), एस एस पथकर (20145), एस दंग (20146), ए भट्ट (20149), एम कपूर (20140), आर रविशंकर (20152), डी एस दिलान (20154), एस पी जौन (20155), एस आर गुप्ता (20156), एन सिन्हा (20157), के एस सैनी (20159), पी मोहन (20160), एम गिरिधर (20163), डी कुमार (20165), एस एस सिरौही (20166), एस वी मुरुगुखर (20167), एस टंडन (20169), डी के सचन (20170), टी शाह (20171), पी भल्ला (20173), एम कलिम (20175), आर सिंह (20177), जी गिरिश कुमार (20179), एस बंशल (20438), एम के गुप्ता (20439), एस सूद (20440), ए सिंह (20441), एस आई सिद्धीकी (20443), टी शंकर (20444), पी जे मोहम्मद (20445), एम पेन्जिंग (20446), एस संधू (20447), एस टी चन्द्रमोहन (20448), वी सी ई सुधाकरण (20449), ए जानू (20450), एम चन्द्रशेखर (20451), टी चौधरी (20452), वी एम रेड्डी (20453), आर डार्गन (20454), आर के नारंग (20456), के के वेणुगोपाल (20459), आर तलवार (20464), एस चौहान (20466), जी सिंहा (20467), ए डी सिंह (20468), एस लाल (20471), एच एस निचल (20475), आर मोहन (20476), एच पी सिंह (20477), पी एस नारा (20478), एम कुमार (20479), ए वर्मा (20480), एल भाटिया (20481), एन कमाल (20482), ए वी जैन (20483), सी वी आर अनुप कुमार (20484), एस के इबनेजन (20486), वी एस डगर (20487), एन जे सिंह (20488), एस शर्मा (20489), एस रबूरी (20490), जे एन मान (20491), आर आर वर्मा (20492), वी जोशी (20493), एस जे पेन्डसे (20495), ए के सिंह (20496), एस जैसिंहानी (20497), एस के माथुर (20498), एन जोशी (20499), पी एस डांगरे (20500), एस मल्लिक (20501), एन पी कुमार (20502), के लोचब (20503), आर जे सिंह (20504), एन एस शोकिन (20505), एम डी सुधीर (20507), वी कुमार (20508), एन एस प्रधान (20509), आर वाई पिंगले (20510), वी सत्यमूर्ती (20511), एस कौल (20512), पी तोमर (20515), वी बी तुगनेत (20516), पी सरकार (20517), वी शर्मा (20518), बी सिंह (20520), ए पाण्डेय (20521), वी कुमार (20524), ए सुब्रामू (20723), टी सिंह (20724), एस सी शर्मा (20725), ए माथूर (20727), ए के गंदेतरा (20730), ए भादरा (20731), ए लूथरा (20733), आर सिंह (20735), पी नैनवाल (20736), बी भादरा (20737), एन शरबनम (20738), आर डी एस हेमराज (20739), ए कुमार (20740), पी एस बडोकर (20741), ए कुमार (20742), पी थोमस (20743), एम एस चौधरी (20744), आर बसिन (20745), के एस गिल (20746), वी गोयल (20747), आर शासन (20748), वी एस पुन्दिर (20749), के डी वी प्रसाद (20750), बी के रिमेल (20751),

पी नारायण (20752), वी महाजन (20753), पी पी कर्डे (20754), वी शर्मा (20757), एस के पटेल (20760), जे एस राना (20761), एन संगुरी (20762), ए के सिंह (20763), के माथुर (20764), के सिंह (20765), पी एस बाजिया (20767), के ए करियप्ता (20771), आर बातरा (20772), एम बी हमराज (20774), सी आर पी रेड्डी (20775), एस एम निजय (20776), वी टी मोरे (20778), जी राठी (20780), जे टी कुरिन (20782), पी पुरिन्दरन (20783), ए के भुयानी (20785), आर अग्रवाल (20786), ओमप्रकाश (20789), पी के डिडि (20790), एस के नौरवी (20791), पी वाई डेतकर (20792), वी शर्मा (20793), एस श्रीवास्तव (20796), एस के सिंह (20797), एम के झा (20798), ए त्रिपाठी (20793), पी गोयल (20974), जे सिंह (20977), वी एस महिदा (20981), ए सक्सेना (20983), ए पंत (20984), एन शर्मा (20985), ए गुल्जाजनी (20986), आर प्रेम (20987), के डी सिंह (20989), जी के जे रेड्डी (20990), एस के कश्यप (20991), वी चौधरी (20992), आर पाण्डेय (20994), एम सिंह (20995), एस एस चौहान (20996), के के संदलिया (20998), ए जोशी (20999), एन रैना (21000), जी कार्गी (21002), आर के नागर (21003), सी एस सैनी (21004), ए भल्ला (21006), जी एस चौहान (21007), वी गौर (21008), जे यादव (21009), जे एस लोहाना (21011), ए के गुप्ता (21017), एम नीमा (21020), एस के सैनी (21021), ए रंजन (21022), एस मिश्रा (21023), एस एस बेरि (21024), एस के बी दोसी (21025), सी सारदा (21026), पी ए पुरोहित (21027), एन पी सिंह (21027), आर वैश्य (21029), जे सिंह (21030), ए ज्योति (21031), एस बालि (21033), एन वैकट (21034), आर कुमार (21035), टी शर्मा (21202), एम कुमार (21205), एन सिंह (21206), डी सिंह (21207), एस के सिंह (21208), जे सुयेश (21209), ए वीज (21211), आर एस गिल (21212), ए के मनडकोट (21214), जी पी राजा (21216), एच सिंह (21219), एस सेठी (21221), ए भाटिया (21222), वी राज (21223), एम यादव (21224), वी नौटियाल (21226), एम एस ग्रेवाल (21227), एस एस दलाल (21228), वी आर विश्वनाथन (21229), वी वित्तल (21230), एस पी सिंह (21232), डी माधव (21234), समीर (21235), एन जोशी (21237), वी राय (21239), ए के गर्ग (21240), के प्रेमकुमार (21241), एम ए इस्माइल (21243), एस खजुरिया (21245), ए के नामदेव (21246), जे एस राजन (21248), ए श्रीवास्तव (21250), एच टी एस मेथी (21251), आर अजित (21252), बी एस गिल (21253), एस रंजन (21254), ए के सिंह (21255), ए भम्बानी (21256), आर के सिंह (21258), एम के सिंह (21259), ए कुशवाहा (21260), आर शेखरी (21261), एस बटा (21262), ए सी सेठी (21264), ए के सिंह (21267), सी के वर्मा (21268), टी ए श्रीनाथ (21269), पी के सिंहा (21270), एस बाटले (21273), जी एस माथरू (21276), डी जोसफ (21277), जी एस कोचर (21278), एम के शर्मा (21279), जी के जेसवाल (21280), जे एस जीजे (21281), आर जोशी (21502), ए एस थाते (21504), जी श्रीनिवास (21505), आर प्रकाश (21507), डी आनन्द (21508), एस एस चाबड़ा (21512), जी गाराल्ड (21513), ए पी सिंह (21515), शशीकांत (21518), एच एन गाबरे (21519), यू जी महेन्दले (21520), जे सिंह (21522), वी आर सनिल (21523), वी कुमार (21524), एस प्रकाश (21525), ए डी पुरन्दरे (21526), एम सिंह (21528), आर के शर्मा (21530), एन जे सिंह (21532), एम के यादव (21533), डी बी सिंह (21534), के के दूबे (21536), जी पी सिंह (21538), एस के दंडापाणि (21539), एम दीपक (21542), एम जौन (21544), एस के गौर (21546), वी सैनी (21547), ए त्रिपाठी (21548),

जे के मेनन (21550), के रमेश (21551), एस एस कैला (21552), पी चोपड़ा (21555), बी यादव (21556), के एस ठाकुर (21557), पी सिंह (21558), बी नाथानी (21559), टी ए राव (21560), वाई एस सिधु (21561), ए बी सुनके (21562), एस कुमार (21563), आर चन्द्रा (21564), पी वी एस नारायणा (21565), ए के शर्मा (21566), एन जगोता (21567), डी होता (21568), आर कृष्णमूर्ति (21569), एस आर सिंह (21570), वाई मार्चिनो (21571), पी राज (21572), एस आर्या (21574), डी वासवानी (21575), एच एस गुलाटी (21576), जी एस चीमा (21577), वी अहलवालिया (21578), एच वालिया (21579)--दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

#### फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्ववाङ्मन लीडर के रैंक में

एस सहगल (22536), डी एस देशपाण्डे (23197), एस वी मुंजे (23511), एम नायर (23725), पी श्रीवास्तव (23748), एस के नायक (23758), पी के चिकारा (23974), आर जैन (23978), एन गर्ग (23982), आर अनेजा (23989), एस प्रभु (23990), एन एस पनू (23996), एस भंडारी (24010), (मिसेज) एन चांदनी (24109), ए एन कलुरकर (24166), डी सेठीया (24170), एच यादव (24171), ए धामी (24172), ए आर बागमारी (24175), जे सेठी (24177), एस के गोरे (24179), एम फैजल (24180), जी एस शोहल (24181), बी रेहानी (24183), एन बमल (24184), पी आर सेन (24186), एम बी एल एन राव (24187), एम प्रकाश (24188), आर सांगवान (24189), एस शर्मा (24190), एस के सिंह (24191), एन एस टिकी (24192), एस कुमार (24195), पी पाण्डेय (24196), आर एस भंडारी (24198), एम ठाकुर देसाई (24200), पी सिंह (24201), बी सिंह (24203), के गिरमी (24205), पी बात्रा (24206), एन शर्मा (24209), ए के अलावट (24210), बी एस देसाई (24213), बी एस भी यादव (24215), के पांडे (24216), ए पी एस हुडा (24217), आर अब्राहम (24219), एन सायलू (24221), ए बक्सी (24222), बी सिरोही (24225), ए डी भारद्वाज (24226), आर भनजॉयस (24227), वी शुक्ला (24228), एम एम सिंह (24229), एम पांडे (24231), आर गखर (24234), वाई आप्ते (24235), एस प्रधान (24236), एन द्विवेदी (24239), पी ए त्रिगोरी (24240), रोसा (24241), एच एस बग्गा (24242), एल एस संदू (24244), ए प्रकाश (24245), एस बशिष्ठ (24321), बी शर्मा (24475), एन सी भट्ट (24476), एम रंगाचारी (24477), पी पी सिंह (24478), एस जोयरदर (24479), ए शर्मा (24480), वाई इन्द्र (24482), एस एस प्रभुनी (24483), बी एन सिंह (24484), एस प्रोवर (24485), पी के लाल (24486), सी जी दीपक (24487), एस एस मलिक (24489), एस मलिक (24490), ए दीप (24491), ए पठनिया (24492), पी मलिक (24494), ए खन्ना (24495), ए ए संतोष (24497), एन सक्सेना (24498), डी बी श्रीनिवास (24499), एम कुमारिया (24500), एम श्रीनाथ (24501), जे विल्फेड साम्युयल (24502), के शर्मा (24503), एस सरकार (24504), आर शरण (24506), आर एम मोहन (24508), ए सिन्हा (24509), ए पी सिंह (24510), ए शुक्ला (24511), डी एस चावला (24512), के पी एस धम्म (24514), एस सहगल (24515), चन्द्रशेखर (24518), जे एस राजपूत (24520), एस एस पांडे (24521), एम चांद (24522), जे सिंह

(24523), के चड्डा (24524), एन नेगी (24525), ए सिंहा (24526), एस गोपीमोहन (24527), एन के डोगरा (24528), ए एस बजुआ (24530), एस कुशावाहा (24532), ए मटिमैन (24533), एस दूबे (24535), बी पी नेने (24536), एस डी गोर (24537), आर डी सिंह (24538), एम एम अरोड़ा (24539), (मिस) एम एस के भल्ला (24589), (मिस) एस दीक्षित (24590), एम थपलियल (24885), पी धवन (24886), एन सिंह (24887), आई जे एस हुंडल (24888), ए मिधा (24890), एस सरवानन (24891), ए जे कोलतकर (24892), एस सिंह (24894), ए बी कुल्कर्णी (24896), ए जैन (24898), वी आर मेहता (24899), बी केदार (24901), के मिश्रा (24902), आर एन पवार (24903), टी शर्मा (24904), आर देशमुख (24905), एच एस संदू (24907), बी तोमर (24909), ए के ठाकुर (24911), ए जरियल (24912), ए ए चन्दके (24913), आर के आई चचादी (24914), एम सक्सेना (24915), जी कुकरेजा (24916), एस सी भगत (24917), एस अनिल (24919), भी सिंह (24920), डी सी तिवारी (24921), एस ए कुरियन (24922), एस मित्रा (24923), टी के सिंह (24924), जी वर्मा (24928), पी संजय (24930), एम के के रेड्डी (24931), एन जेन (24932), जे सिंह (24933), ए जी दसरी (24935), ए कुमार (24936), डी दहिया (24937), बी नेगी (24938), ए अरविन्द (24939), जी सावंत (24940), एस तिवारी (24943), के ए अनिल (24944), ए ए मुदबिदरी (24946), एम तलवार (24947), डी शर्मा (24949), बी ए काले (24950), ए श्रीवास्तव (24952), के एन सिंह (24953), ए मेहता (24956), पी गडियाल (24957), आर सी तिवारी (24960), (मिसेज) विसमी देवसे (25027), पी के दारूरिया (25041), आर एस सुधी (25043), पी अम्नोहात्री (25059), बी एस सैनी (25060), एस एस गिरवाल (25061), एस के खिन्हा (25063), एस बी साहारम (25065), डी मंडल (25066), वाई गिरवाल (25068), एस शर्मा (25069), जी एस सुदन (25070), ए पी देशपांडे (25071), आर महाजन (25072), बी भाटिया (25073), एस हंडा (25074), बी मेहरा (25075), आर मित्तल (25077), बी पाल (25078), पी पी मिश्रा (25079), आर कपिल (25081), जे डी मसुरकर (25082), बी टी प्रकाश (25083), एन मिश्रा (25084), वाई कुमार (25085), के हजिला (25086), सी यू बी राव (25087), ए रायना (25089), यू शिभम (25090), के रामजी यादव (25091), डी पंत (25092), ए शैमल (25093), एस के चंदन (25094), ओ एस के रेड्डी (25095), सी जैयदीप (25097), बी के शमा (25098), पी एल गर्ग (25100), डी कुमार (25103), ए आर महादीक (25104), एम बी मुदिलियर (25105), एस के यादव (25106), डी केस्टलिनो (25107), एम मनदरगी (25108), एम कलिता (25109), ए जैन (25110), वी पी सिंह (25111), आर एस चांदियल (25112), एस के मिश्रा (25113), ए ए फनसल्कर (25114), एस रावत (25115), एन के दुबे (25116), ए श्रीधर (25117), वी के पांडे (25118), एम चौधरी (25119), ए भौमिक (25120), डि मित्रा (25122), बी पाठक (25123), एस एस बिर्दी (25125), बी एस रन्देवा (25126), आर गौतम (25127), पी सी पंत (25130), आर शर्मा (25131), पी यादव (25132), ए दावे (25134), एम के पांडे (25135), ए अनिस (25136), पी पी हुड्डर (25137), एस पोल (25138), जे पी सिंह (25139), एन बात्रा (25140), (मिस) दिप्ता चित्रपू (25178), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

एस कपूर (24193), के रामाराव (25286), पी बोस (25292), ए राठी (25295), वी एस श्रीवास्तव (25300), जे कुमार (25302), एन अग्रवाल (25303), ए मेहरा (25306), ए शर्मा (25310), एस सिंह (25317), ए पाण्डे (25321), वी अब्बी (25322), एस सिवाच (25323), सी नन्दकिशोर (25327), पी के सिंह (25337), आर कुमार (25340), ए कुमार (25342), टी जी सिंह (25346), पी के नन्दरजोग (25349), बी एस डिलोन (25350), (मिसेज) निवेदिता राय (25401), दिनांक 19 दिसम्बर 2004 से।

पी के चौहान (25293), जे एस चीब (25335), दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

के एन तिवारी (26722), दिनांक 09 मार्च 2005 से।

एन के श्रीवास्तव (26277), डी नॉटियाल (26278), डी सन्याल (26279), पी सौरव (26280), के पी कुमार (26281), एस सूरे (26282), एन के वात्सय (26283), ए सरीन (26284), एस डब्ल्यू आलम (26285), ए गुप्ता (26286), एम जोहर (26288), एस गुप्ता (26289), जी सिमवाल (26290), ए शर्मा (26291), एस अग्निहोत्री (26292), पी तिवारी (26293), एन चदा (26294), ए एस सचदेवा (26295), सी एस सैनी (26296), बी एस श्रीनिवास (26298), वी ए जामकर (26299), आर अहलवार (26300), ए पी सिंह (26301), पी कन्डपाल (26302), आर बटला (26303), एम एम त्रिपाठी (26304), वी अग्रवाल (26305), एस बालागोपाल (26306), आर गोपीनाथन (26307), के नजीर (26308), एस जकालू (26309), वी वी संतोष (26310), के गोयल (26311), पी ओझा (26312), एस मित्रा (26313), एल एस चरण (26314), वी वेणुगोपाल (26315), एन चौरसिया (26316), एस वर्मा (26317), डी मंगराज (26318), खण्डेवाले (26319), वी वी तकाले (26320), बी एस बजवा (26321), बी एस बिष्ट (26322), आर त्यागि (26323), के सी नैथनी (26324), ए दे (26325), ए सिक्का (26326), एस योगेश (26328), एम नेगी (26329), डी हुडा (26330), एस मनचंदा (26331), के प्रवीण (26332), (मिस) मोना सिरोही (26364), ए अबुट (26511), एफ राय (26512), एस धनकर (26513), आर पठानिया (26514), एन नायाल (26515), वी वर्मा (26517), जे जे ओविलिल (26518), वी के पटिल (26519), डी गुप्ता (26520), पी सों (26521), बी दास (26523), ए के चौधरी (26524), के भरत (26525), एस थंगावेलू (26527), वी के कौशल (26528), ए शर्मा (26529), यू कुमार (26530), वी शुक्ला (26532), जे मुखर्जी (26533), एम एस भरत (26534), एस सिंह (26535), एम केसव प्रसाद (26536), वी मेहता (26538), वाई सी दहिया (26539), एस सिंह (26540), जी रातुरी (26541), एच चीमा (26543), वी उनियल (26544), ए शर्मा (26545), ए सिंह (26546), यू गोजा (26548), पी गोयल (26551), एस सरवानावेल (26552), वी भार्गवा (26553), वी श्रीतरिया (26555), सी शेखर (26556), आर के शर्मा (26559), ए कुलकर्णी (26560), एस शंकरन (26561), ए एस अस्थाना (26562), एन सब्बरवाल (26683), एस एस गहलोत (26685), पी अंटिल (26686), के सिंह (26687), टी जचारिया (26688), एम तोलानी (26689), एस मिश्रा (26690), पी

गोयल (26691), पी अग्रवाल (26693), एम अभिमान (26694), एन बुंदेला (26695), एच सिंह (26696), जी कुमार (26697), ए सिंह (26698), आर कदयन (26699), वी मिश्रा (26700), ए अरोडा (26701), ए द्विवेदी (26702), ए सिंह (26703), वी रिशि (26704), एस बोकिल (26706), ए गुप्ता (26707), वी शर्मा (26708), ए तिरखा (26709), डी कुमार (26711), पी आर पोनप्पा (26712), एस सिंह (26713), ए के पटनायक (26714), ए शर्मा (26715), ए सिंह (26716), ए दुबे (26717), आर शर्मा (26718), ए के जावला (26719), वी सिंह (26721), वाई वी आर कुमार (26723), ए धिमान (26724), वी थियागरमन (26725), ए कथुरिया (26726), एन तलवार (26727), एस सिंह (26728), एन नेरोत्रा (26731), ए ए साठी (26732), एच एस सिधू (26733), ए शर्मा (26734), ए धायनि (26736), एस एस बिष्ट (26737), पी सिद्धार्थ (26738), ए ठाकुर (26739), ए पी लोकांडे (26740), ए श्रीवास्तव (26741), जी मुखर्जी (26742), एन उपाध्याय (26743), (मिस) एस कौर (26781), डी सब्बरवाल (26899), एस सुखांत (26951), एस चिंतादा (26952), एम गेरा (26953), ए सिंह (26954), पी झा (26955), डी तोमर (26956), ए जोरर (26957), आर के सिराव (26958), एस राय (26959), एन चौहान (26960), वाई धनकर (26961), ए कुमार (26962), टी खारे (26963), पी जी आरजरिया (26964), पी बेनिवाल (26965), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

स्क्वा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एम बी मैथ्यू (21992), वी जेतली (21994), वी शर्मा (21997), यू डी पथकर (22001), दिनांक 14 अगस्त 2005 से।

फ्ला. लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वा. लीडर रैंक में

विवेक शर्मा (25594), अखिलेश दिनकर सबनिश (25595), नितिन कुमार माल (25596), परमजीत सिंह मुलतानी (25597), अनिल वर्मा (25598), निखिल गुप्ता (25599), प्रशांत अरोडा (25600), विवेक परादीप नायक (25601), एम गोयल (25602), परानेय कुमार (25603), प्रेम कुमार गर्ग (25604), निसहीत ओहरी (25605), आकाश चोपरा (25606), श्रीयास लालचन्द महाजन (25607), एन प्रशान्त (25609), गौरव भटनागर (25610), मनोज कुमार (25611), कुमार निसिथ गुप्ता (25613), अर्जुन श्रीधर (25614), हेमन्त कुमार (25615), जगविन्दर सिंह (25616), नितिन खन्ना (25617), निमेश चतुर्वेदी (25618), सपम लीनिन (25619), अमित पांडे (25620), पी कश्यप (25621), गगन कोहली (25622), दिबाशिस डे (25623), डी एस दहिया (25624), ए थाकरे (25625), विवेक अग्रवाल (25626), मनिष असुधानी (25627), पंकज शर्मा (25628), पी एस कुशवाहा (25629), मुकेश कुमार (25630), डिवम वत्स (25631), रंजीत जनार्धन (25632), विजय सिंह मंध (25633), अभिजीत सिंह बाली (25634), निलेश निपुण (25635), अरूण महादेवन (25636), सुमित विश्वनाथन मेनन (25638), शिव कुमार (25639), उदयन कुमार (25640), अभिशोक शुक्ला (25642), उमेश चन्द्र वैश (25643), आर रमन (25644), रंजीत कुमार (25645), संतोष बाबू (25647), चेतन बजाज (25648), बी कुमार (25649), शशिकांत शर्मा (25651), ए वी पवार (25652), त्रिकालदर्शी कुमार सिंह (25653), एस पाणिग्रही (25654), विजित जुआल (25655), मुकुल खरे (25656), पुनीत सिंह (25657), दिनांक 19 जून 2005 से।

(एम एस) अनिता आप्ते (25689), (एम एस) रेणु शेखावत (25690), (एम आर एस), शोम्या रथा (25691), दिनांक 19 जून 2005 से।

(एम एस) वी शर्मा (27543), दिनांक 19 जून 2005 से।

ए कृष्णन (27436), एम गर्ग (27437), वी प्रभाकरण (27439), जे एस बरार (27440), एच वी पाण्डेय (27441), एस पचौरी (27442), आर कठारिया (27443), आर के सिंह (27444), एन झाम्ब (27445), ए के यादव (27446), के पी सिंह (27447), एस सिवाच (27448), ए बावा (27449), वी भूषण (27450), एम एस सधू (27451), एस धनकर (27452), वी धूल (27453), ए थापा (27454), पी पन्तरा (27455), आर एन मोहन्थी (27456), ए काला (27457), एन के सिन्हा (27458), डी के धनखर (27459), एस कुमार (27460), वी जैन (27461), ए अग्रवाल (27462), एस सूरी (27463), एस झा (27464), एम नौटियाल (27465), ए के सिंह (27466), एस कर्माकर (27467), ए हाकिम (27468), पी पन्त (27469), एम तिवारी (27470), के सिंह (27471), वी उपाध्याय (27472), एस भट्ट (27473), डी हाजारिका (27474), एम विशाल (27475), आई डब्ल्यू के जारियल (27476), ए पटेल (27477), वी यादव (27478), जी के वर्मा (27479), टी एस नेगी (27480), पी के शहरावत (27481), एस एस बरसिंह (27482), डी जाँय (27483), डी वत्त (27484), ए मोगी (27485), एफ रिच्ची (27486), ए कोहली (27487), ए जी यादव (27488), दिनांक 13 जून 2005 से।

वी के गुप्ता (26966), ए बहेल (26967), के सुर्यनारायण (26968), पी गुप्ता (26969), ए रेपस्वाल (26971), वी कुमार (26972), आर एस पाटिल (26973), वी सलारिया (26974), ए गर्ग (26975), ए राणा (26976), एस मान (26977), ए वी अतवाले (26978), एस गुप्ता (26979), जी एस घुमन (26980), एस त्रिपाठी (26981), पी एस चौहान (26982), डी गुलाटी (26983), बी एस रेड्डी (26984), जे थोमस (26985), ए मेहरोत्रा (26986), बी के साहू (26987), एच एस भाटी (26988), एस के गुप्ता (26989), आर अहुजा (26990), आर पनवर (26991), एस वशिष्ठ (26993), एच आर भट्ट (26994), के अवस्थि (26995), एम सिंह (26996), आर शर्मा (26997), आर पांडे (26998), पी बोबदे (26999), आर सिंह (27001), एस एस मुलतानी (27002), ए राज (27003), सी गर्ग (27004), आर वर्मा (27005), एन पाठक (27006), एम ए खान (27008), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

एस गुनाशेखरण (25830), यू गोविल (25841), आर शुक्ला (25845), जे पोथेन (25851), एस के अहुजा (25852), दिनांक 18 दिसम्बर 2004 से।

ए धनकर (27194), पी कृष्णकांत (27195), आर अग्रवाल (27197), सी अरोडा (27198), पी हल्दीकर (27200), ए आर ताम्ते (27202), ए अलेय (27205), एस एस राणा (27206), जी शर्मा (27209), वाई जोहरी (27210), जी डी के रेड्डी (27211), आर डी जगताप (27212), जौ भटनागर (27214), एस आई खान (27215), बी के डैस (27217), आर कटोच (27218), एन कुमार (27220), एस भोपी (27221), एस सागर (27222), वी मनोज (27227), (मिस) तेजी उप्पल (27278), (मिस) दीपिका दादलानी (27279), दिनांक 21 दिसम्बर 2004 से।

## उड़ान पायलट शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

एन एस सबलोक (15687), ए भाकू (15689), एस के चक्रवर्ती (15707), के एस सांगरी (15712), एस सिंह (15724), पी जेकब (15725), दिनांक 15 जून 2005 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

के नारायण (16170), आई पी शर्मा (16173), एन शर्मा (16174), दिनांक 06 जुलाई 2005 से।

विमानन अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) के रैंक में

एम एफ खान (16154), के नाथ (16156), ए के पाठक (16162), एस कपूर (16163), एस के राय (16175), दिनांक 06 जुलाई 2005 से।

## प्रशासनिक शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

जे एस मान (13800), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से। आर नागराजन (15741), जी सक्सेना (15744), के शुक्ला (15746), एच आर जानकीराम (15747), एच लतीफ (15749), दिनांक 15 जून 2005 से। आर के वर्मा (14394), के ठाकुर (14404), एम पी सिंह (14741), जी एस दाश (15344), दिनांक 01 जुलाई 2005 से।

## परिभारिकी शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

यू के नाथ (15692), ए के माथुर (15754), जी के जौहरी (15757), ए एस श्रीवास्तव (15760), दिनांक 15 जून 2005 से।

## लेखा शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

डी के बुधिराजा (15765), पी एस जेम्स (15767), आर मन्होत्रा (15771), दिनांक 15 जून 2005 से।

## उड़ान पायलट शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

एस के अग्रवाल (15967), दिनांक 05 जनवरी 2005 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

सुरेश चन्द (15106), पी सी दास (15608), पी कुमार (15280), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से। एस पी कुमार (15952), 05 जनवरी 2005 से।

## प्रशासनिक शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टन (टाईम स्केल) रैंक में

ए के भट्टनागर (14724), डी पुन्नी (14406), टी एम प्रेम कुमार (15244), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

स्वाइन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

वी बालासुब्रमनियन (21688), दिनांक 01 फरवरी 2005 से। एस मनोहरन (19470), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

स्वाइन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एस के के वर्मा (18017), एस सेन (17833), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

## प्रशासनिक शाखा

स्वाइन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एच के भारद्वाज (17878), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

## लेखा शाखा

स्वाइन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

वी पिन्दे (19393), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

## उड़ान (पायलट) शाखा

स्वा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एस सजन (21807), एन डेनिस (21808), पी सिंह (21809), ए सी गोखले (21811), आर रनवन (21812), जे बनर्जी (21813), वाई जे जोशी (21814), एस टोकेकर (21815), ए सिंह (21816), एम सपरे (21817), एस वशिष्ठ (21818), वी एम जे अगस्त्यइन (21819), पी प्रकाश (21820), पी भौमिक (21823), एस के शर्मा (21825), एस एम बावले (21826), एम तिवारी (21828), एम महादेव (21830), बी कर (21831), ए गुप्ता (21833), एस एस छाबड़ा (21834), जे चक्रवर्ती (21835), पी के अवस्थी (21836), जी एस बिसन (21837), एस खुंडू (21838), एस अरूणाचलम (21839), ए के दुदपुरी (21840), जे मित्रा (21842), एम एस भंडारी (21843), वी एस राणा (21844), आर आर के रेड्डी (21845), आर पूरी (21846), आर चौधरी (21847), एस परेरक (21849), एन एस यादव (21850), एम पाहवा (21851), एस कपूर (21853), ए जी श्रीनिवासन (21854), टी एस माधू (21855), एस स्वामी (21856), जी लक्ष्मन (21857), ए जी यादव (21859), आर मानकोटिया (21860), बी प्रकाश (21862), एस भार्गवा (21863), बी घोष (21865), पी पी मोदक (21866), ए मुखर्जी (21867), एस कुमार (21868), आर नारायण (21869), बी आर अगस्त्यइन (21870), डी भास्कर (21872), (21873), बी एन सिंह (21874), दिनांक 13 जून 2005 से।

## प्रशासनिक शाखा

स्वा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एच एस मल्होत्रा (21852), दिनांक 13 जून 2005 से।

## उड़ान (नेविगेशन) शाखा

स्वा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एम के सिन्हा (21969), एम के रमेश (21970), के बी सिंह (21971),



एन एम भवियानर (21972), डी के नीरकर (21973), बी के चौहान (21974), बी सिंह (21975), बी जे डिसूजा (21976), एस जे डिसूजा (21977), जी नागसुन्दरम (21978), जी रामबाबू (21979), के के घोष (21980), एल राजागोपाल (21981), ए चौधरी (21982), एन सेनी (21983), ए के सिंह (21985), ए गुप्ता (21987), दिनांक 13 जून 2005 से।

फ्लाइट आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

एस अवस्थी (27489), एम दास (27490), डी भादुरिया (27491), एल नरेश (27492), डी परेक (27493), आर के यादव (27494), एम एस अली (27495), डी भाटिया (27496), ए खन्ना (27497), वी चौधरी (27498), जी रे (27499), दिनांक 21 जून 2005 से।

प्रशासनिक शाखा

स्क्वा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

आर ठाकरन (21824), एच एस विर्दी (21861), ए प्रकाश (21871), दिनांक 13 जून 2005 से।

ए एस एम एस अनन्था (21986), दिनांक 13 जून 2005 से।

उड़ान (नेवीगेशन)

फ्ला. लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वा. लीडर रैंक में

सुभाष राठी (25659), संदीपानी पात्रा (25660), जी एस कक्कड़ (25661), सरंजीत एस संधू (25662), सत्यजीत आर नामबीयर (25663), अनुभव कुकरेती (25664), संजीव राव (25665), एम के चौहान (25666), मिहिर सुधीर पाटील (25667), शशिकांत शर्मा (25668), सुनील कुमार धीमान (25669), रीशि काला (25670), दिनांक 19 जून 2005 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वा. लीडर में

मनुज शर्मा (25646), सचिन मेहता (25658), दिनांक 19 जून 2005 से।

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल शाखा स्क्वा. लीडर में

सोलंकी एम पी एस (25608), दिनांक 19 जून 2005 से।

एस श्रीवास्तव  
विंग कमाण्डर  
जे डी पीओ 3 (डी)

सेना शाखा

सं. 142, दिनांक 28 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 21.10.2002 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

सुरेन्द्र कुमार पाण्डे (एमएस-13689वाई) (एमआर-08195एल) एएमसी, 10.10.1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30.04.2005

में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 27.08.2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

लेफ्टिनेन्ट रोशनी जगदीप अविचन्दानी (एमएस-13781एक्स) (एमआर-08191एच) एएमसी, 13.10.1999 (दिनांक 03.01.2000 की इन्टरशिप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 04.01.2000 से कप्तान का पद दिया गया) (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 01.12.2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 22.03.2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

हरिश एस (एमएस-14432ए) (एमआर-08236के) एएमसी, 15.02.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12.04.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

दरिन साका (एमएस-13893एक्स) (एमआर-08202डब्ल्यू) एएमसी, 16.07.1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08.09.2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

विधान रय (एमएस-14350एक्स) (एमआर-08230एच) एएमसी, 18.02.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25.12.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अमल नन्दकुमार पटेल (एमएस-14367एल) (एमआर-08232एन) एएमसी, 07.03.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.10.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

शैलेन्द्र सिंह (एमएस-14348ए) (एमआर-08227एच) एएमसी, 11.02.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30.04.2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राघवेन्द्र सिंह चित्तोडिया (एमएस-14356वाई) (एमआर-08231एल) एएमसी, 26.02.2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 26.02.1999

से हो जाएगी। इसमें स्नातोकोत्तर योग्यता एमएस (सर्जरी) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24.04.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राजेश कामरान  
ब्रिगे

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 143, दिनांक 22 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर. के. एम. भट्टाचार्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 दिसंबर, 2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री के. के. विजयन की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 दिसंबर, 2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अपुभाग अधिकारी श्री जसवंत सिंह की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 जनवरी, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जी. विजयराघवन  
अवर सचिव

थल सेना शाखा

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं. 144, दिनांक 24 फरवरी 2006--निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखी हुई दिनांक से सेवानिवृत्त हो गये हैं :-

श्री घोडी रमनलाल मनोर, ई. एम. ई. ऑफिसर (सिव), 28 फरवरी 2005 (अपराह)

श्री सी. एम. जोशी, चीफ ड्राफ्ट्समैन, 31 मई 2005 (अपराह)

श्री बी. वाई. वी. कृष्णराव, चीफ ड्राफ्ट्समैन, 31 मई 2005 (अपराह)

श्री उजियार राम, सहायक अभियंता (सिलैक्शन ग्रेड), 30 जून 2005 (अपराह)

श्री पी. के. पिपलानी, अधीक्षण अभियंता, 30 सितम्बर 2005 (अपराह)

श्री विश्वनाथन बुर्शा सी., प्राईवेट सेक्रेटरी, 31 अक्टूबर 2005 (अपराह)

एन. के. कश्मीरा  
अवर सचिव

नेवी ब्राँच

नौसेना मुख्यालय

सं. 145, दिनांक 23 फरवरी 2006--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर नौसेना मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सेवा-निवृत्त हुए और उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया :-

नाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि	पेंशन स्थापना में स्थानान्तरण की तिथि
श्री मामन चन्द, एस ओ	31.08.2005	01.09.2005
श्री निरंजन, पी एस	31.08.2005	01.09.2005
श्री गोपी नाथ, व पी पी एस	31.08.2005	01.09.2005
श्री एस सी बांगिया, पी एस	30.11.2005	01.12.2005
श्री जे सी शर्मा, पी एस	30.11.2005	01.12.2005
श्री आर पी मेहरा, एस ओ	30.11.2005	01.12.2005
श्री एम एल बंसल एस ओ	30.11.2005	01.12.2005
श्री एन के आहूजा, एस ओ	31.12.2005	01.01.2006
श्री गुरमेल चन्द, एस ओ	31.12.2005	01.01.2006
श्री आर के शर्मा, व पीपीएस	31.12.2005	01.01.2006
श्री रामेश्वर प्रसाद, एस ओ	04.12.2005(निधन)	

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2005 से 08.02.2006 की अवधि तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक स्थानापन्न उप निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- के रूप में नियुक्त करते हैं :-

श्री जे ए पाराम्बल

श्री जवाहर लाल

श्री मान सिंह

श्री डी वी सिंह

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जाती है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक आने पर रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी(ए)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th March 2006

No. 129, dated 22nd February 2006.—Consequent on inclusion of his name in the Select List for the year 1997 for Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS), the President is pleased to appoint Shri D. P. Singh, Deputy Secretary (ad-hoc) of CSS, Ministry of Defence, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis in the same Ministry, with effect from the forenoon of 01.07.1997 until further orders, in pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 4/10/2005-CS.I(i) dated the 15th September, 2005.

2. The inter-se-seniority in the Selection Grade of CSS will follow the serial order given in the Annexure-III to DOP&T OM referred to above irrespective of his actual date of appointment to the Selection Grade.

The President is pleased to appoint Shri B. K. Banerjee, a regular Principal Private Secretary of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Defence as Senior Principal Private Secretary, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis, w.e.f. the forenoon of 15.12.2005, for a period upto 30.06.2006 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of Shri Banerjee as Senior Principal Private Secretary is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

The President is pleased to appoint IC-47634 Lt. Col. D. P. K. Pillay, Guards of ADG TAC Army Hqrs, as Planning Officer (Defence) in the Ministry of Defence in the pay scale of Rs. 13,500-400-17,100/- plus Rank, Pay on deputation basis for a period of three (03) years with effect from the forenoon of 2nd January, 2006 or till further orders, whichever is earlier.

G. VIJAYARAGHAVAN  
Under Secy.

## (FINANCE DIVISION)

No. 130, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Sood, IDAS (1982), as Finance Manager in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 2nd January, 2006 for an initial period of three years, extendable up to five years of further orders, whichever is earliest.

The President is pleased to appoint Smt. Shobhana Joshi, IDAS (1979), as Finance Manager in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 2nd January, 2006 for an initial period of three years, extendable upto five years or further orders, whichever is earliest.

D. K. PANDEY  
Director (Finance/E)

## (ARMY BRANCH)

No. 131, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Sep 2004 with seniority for promotion and increments of pay from 07 Nov 1997 on relinquishing thier SSC wef 04 Sep 2004. His inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain same as allocated in GN for grant SSC:—

Sl. No.	SS No.	IC No.	Name	Arm/ Service
1.	SS-37971	IC-56317F	Naresh Kumar	Engrs

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 06 Mar 2004 with seniority for promotion and increments of pay from 09 May 1997 on relinquishing their SSC wef 06 Mar 2004. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain same as allocated in GN for grant SSC:—

Sl. No.	SS No.	IC No.	Name	Arm/ Service
1.	SS-37623	IC-56169F	Sandeep Singh Sidhu	EME
2.	SS-37624	IC-56170W	Preetpal Singh	Engrs
3.	SS-37625	IC-56171Y	Shiv Mangal Singh	Sigs
4.	SS-37627	IC-56172F	Sandeep Mehra	Sigs

MLN SRAVAN KUMAR  
Col  
Col MS-7

No. 132, dated 22nd February 2006.—The President is pleased to extend the appointment of Shri O. P. Chauhan, a regular Principal Private Secretary of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Defence as Senior Principal Private Secretary, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis, for a further period from 01.01.2006 to 30.06.2006 or till regular Sr. PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of Shri Chauhan as Senior Principal Private Secretary is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

G. VIJAYARAGHAVAN  
Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA  
KARYALAYA

No. 133, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 24 Aug 2005 and upto 23 February 2006 or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Date of birth
1.	Shri K C Bhardwaj	22 Feb 1959
2.	Shri Yogesh Dwivedi	01 Jan 1964
3.	Shri Prabhu Dayal	10 Mar 1946
4.	Shri M Sham Raj	25 Sep 1949
5.	Shri P J Ross	19 Jun 1967
6.	Smt. Anita Kumari	01 Jan 1967
7.	Shri Alok Garg	12 Jun 1963
8.	Shri Desh Raj	05 Oct 1955
9.	Shri A K L Das	26 Jan 1966
10.	Shri Gulshan Rai	30 Oct 1968
11.	Shri P P Pudgal	05 Aug 1960
12.	Shri Charanjeev Singh	13 Jul 1965
13.	Shri K N Prasad	26 Oct 1965
14.	Shri S K Jain	11 Dec 1963
15.	Shri Deepak Kumar Das	01 Aug 1966
16.	Shri Rajni Mohan Gupta	10 Jan 1949

2. The appointment will take effect from the dates the officers assume charge of post.

3. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

**SHANKAR SINGH**  
Dy. Chief Administrative Officer

## (ARMY BRANCH)

## REGULAR ARMY

## ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 134, dated 22nd February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar: Clk (GD/SD)

Nb Sub Prasanta Kumar Das (JC-642634P), 01 Oct 2005

Nb Sub Shyam Kishore Pandey (JC-641832N), 01 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 Sep 2005 without effect on pay and allces).

Nb Sub S Jeya Balan (JC-642135A), 01 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 Sep 2005 without effect on pay and allces).

Nb Sub A Rajandran (JC-642220H), 07 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Nb Sub Ajaya Kumar Rath (JC-642696P), 01 Nov 2005

Nb Sub Ajaya Kumar Dash (JC-642635X), 01 Nov 2005

Nb Sub Sombir (JC-642262P), 01 Nov 2005

Nb Sub Suresh Kumar KG (JC-642264A), 01 Dec 2005

Nb Sub Jaipal Singh Rawat (JC-642266L), 01 Dec 2005

Nb Sub Lavesh Kumar Pathariya (JC-642267N), 01 Dec 2005

Nb Sub Motilal Turki (JC-642268W), 01 Dec 2005

Nb Sub S Kathirvelu (JC-642269Y), 01 Dec 2005

Nb Sub Gyan Singh (JC-642270N), 01 Dec 2005

Nb Sub Bikram Singh (JC-642271W), 01 Dec 2005

To be Subedar: Personal Assistant

Nb Sub Subrata Mandal (JC-642687N), 01 Nov 2005

Nb Sub Chittaranjan Samal (JC-642688W), 01 Nov 2005

Nb Sub Balan Karayi (JC-642689Y), 03 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Nb Sub Apurva Nag (JC-642690N), 01 Dec 2005

Nb Sub Megh Raj (JC-642691W), 01 Dec 2005

Nb Sub Pranab Kumar Nandi (JC-642692Y), 01 Dec 2005

To be Naib Subedar Clk (GD/SD)

Hav Tara Chand (6377755F now JC-663620H), 05 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Hav Shyam Sunder (6377846L now JC-663621L), 01 Oct 2005

Hav Bharat Singh (6377871K now JC-663622N), 01 Oct 2005

Hav Madhu Sudan Karmakar (6377875A now JC-663623W), 02 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Hav Partap Singh (6377959N now JC-663624Y), 03 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Hav Pawan Singh Rana (6377983K now JC-663625F), 01 Nov 2005

Hav Surendra Pandey (6377984M now JC-663626K), 01 Nov 2005

Hav Onkar Singh (6378002F now JC-663627M), 01 Nov 2005

Hav Satyaveer Yadav (6378004M now JC-663627M), 01 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Hav Putul Sadhanidar (6377663P now JC-663668W), 28 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Hav Rajveer Singh Shekhawat (6378014W now JC-663669Y), 20 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Hav Tarsem Lal (6377537H now JC-663670N), 21 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

Hav Sukhdev Singh (6378102M now JC-663671W), 20 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

Hav Surjit Singh Salaria (6378108N now JC-663672Y), 20 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

Hav Nihal Singh (6378123H now JC-663673F), 21 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar Personal Assistant

Hav Sundreswaran U (14475685P now JC-663604L), 17 Oct 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allces).

Hav Kishore Kumar Tripathy (6376363F now JC-663605N), 01 Sep 2005

Hav Ram Yash Patel (1468778F now JC-663629X), 01 Oct 2005

Hav Pardeep Kumar (13745494N now JC-663630M), 02 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Hav Kuldip Singh Charak (6377200A now JC-663631P), 01 Nov 2005

Hav Shyama Sundara BG (14243821H now JC-663674K), 16 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allces).

Hav Nandan Singh Bisht (6378647K now JC-663675M), 12 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Hav Mohar Singh Lamoria (13965698L now JC-663676P), 09 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

Hav Sharat Kumar Naik (6381290K now JC-663677X), 12 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Bahadur Singh (JC-296294X), 16 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Sub B Thanga Raj (JC-296862X), 05 Dec 2005/11 Nov 2005\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Shambhu Thakur (JC-298850F), 09 Dec 2005/31 Jul 2005\*

Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-298147N), 29 Sep 2005/31 Jul 2005\*

Nb Sub Vachakal Shiviji Bapu (JC-298098W), 08 Dec 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-298275L), 10 Sep 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Uma Shankar (JC-298641K), 14 Nov 2005/19 Sep 2005\*

Nb Sub Ravinder Singh (JC-298092P), 02 Dec 2005/25 Sep 2005\*

Nb Sub M Rajendran (JC-298146L), 16 Nov 2005/26 Sep 2005\*

Nb Sub Indrapal Singh (JC-298074M), 26 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Deva Nand (JC-298212H), 01 Oct 2005

Nb Sub Mahender Singh (JC-298447P), 24 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Dharamvir Singh (JC-298288H), 10 Nov 2005/03 Oct 2005\*

Nb Sub Sita Ram Lomror (JC-298340A), 23 Nov 2005/03 Oct 2005\*

Nb Sub Deo Kumar Mishra (JC-297419W), 10 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Ram Shankar (JC-298049Y), 12 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Bhabataran Pramanik (JC-298112X), 02 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Ramesh Chandra Solanki (JC-298189A), 23 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Krishna Pratap Singh (JC-298308L), 29 Nov 2005/03 Nov 2005\*

Nb Sub Bajrang Singh (JC-298076X), 01 Jan 2006

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Purushotham (JC-298784K), 01 Oct 2005

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Ram Avtar Singh Baghel (JC-297625A), 03 Jan 2006/01 Jan 2006\*

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-296361X), 06 Dec 2005/01 Dec 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 135, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

**REGULAR ARMY**

**CORPS OF ENGINEERS**

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Surendra Krishnarao Yermulkar (JC-347177X), 12 Aug 2005

Sub (Clk GD) Karan Singh (JC-347168W), 07 Oct 2005

Sub (Clk GD) Ramyash Singh (JC-347167N), 03 Oct 2005

Sub (Clk GD) Ramphal Singh (JC-347249W), 02 Nov 2005

Sub (Clk GD) Birpal Singh (JC-347240F), 03 Sep 2005

Sub (Clk GD) Soman Pillai G (JC-347171W), 10 Oct 2005

Sub (Clk GD) Satya Narain Dalohar (JC-347198N), 03 Oct 2005

Sub (Clk GD) Ami Chand (JC-347298Y), 15 Aug 2005

Sub (Clk GD) Shyam Lal (JC-347591W), 01 Oct 2005

Sub (Clk GD) Jarnail Singh (JC-347201H), 17 Aug 2005

Sub (Clk GD) Ram Pal (JC-347209P), 21 Oct 2005

Sub (Clk GD) Kalyan Singh (JC-347226P), 13 Oct 2005

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Karamjit Singh (JC-347413N), 15 Sep 2005

Sub (GD) Harbans Singh (JC-347448K), 24 Sep 2005

Sub (GD) Gurdip Singh (JC-347354M), 04 Aug 2005

To be Subedar (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Mahesh Kumar (JC-348053P), 07 Jul 2005

Nb Sub (Clk GD) Dev Raj (JC-348565F), 13 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Harswarup Singh Verma (JC-348531N), 01 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Tara Chand (JC-348535K), 13 Aug 2005

Nb Sub (Clk GD) Raj Bali (JC-348532W), 09 Aug 2005

Nb Sub (Clk GD) Dharambir Tyagi (JC-348595Y), 17 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Jai Pal Singh (JC-348566K), 13 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Shivnath (JC-348554P), 05 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Ram Nath (JC-348543H), 03 Sep 2005

Nb Sub (Clk GD) Rajendra Kumar (JC-348567M), 10 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Jai Singh Sehwat (JC-348547Y), 17 Sep 2005

Nb Sub (Clk GD) Jhabboo Lal (JC-348541X), 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk GD) Lakhan Singh (JC-348584M), 07 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Mohinder Singh Rana (JC-348552K), 22 Sep 2005

Nb Sub (Clk GD) Adsul Vithal Shrirang (JC-348632F), 06 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Philip M G (JC-348587A), 01 Oct 2005

Nb Sub (Clk GD) Lala Ram Sen (JC-348574H), 21 Sep 2005

Nb Sub (Clk GD) Hoshiar Singh (JC-348555X), 08 Oct 2005

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Parminder Singh (JC-349190A), 19 Oct 2005

Nb Sub (GD) Kaka Singh (JC-349138X), 16 Aug 2005

Nb Sub (GD) Satnam Singh (JC-349157H), 28 Sep 2005

Nb Sub (GD) Madan Singh (JC-348806W), 15 Aug 2005

Nb Sub (GD) Mohd Sanullah Ansari (JC-349160H), 28 Sep 2005

Nb Sub (GD) Om Prakash (JC-349151F), 30 Sep 2005

Nb Sub (GD) Chain Singh (JC-349141X), 11 Aug 2005

Nb Sub (GD) Sabale Balu Sahadu (JC-349161L), 18 Oct 2005

Nb Sub (GD) Mane Machinder Nath Maruti (JC-349137P), 26 Sep 2005

Nb Sub (GD) Raghuvir Singh (JC-349153M), 29 Sep 2005

Nb Sub (GD) Kumbhar Vilas Ishavara (JC-349187A), 27 Sep 2005

Nb Sub (GD) Baldev Singh (JC-349142A), 08 Aug 2005

Nb Sub (GD) Piara Singh (JC-349189L), 17 Oct 2005

Nb Sub (GD) Ram Kishore (JC-349126H), 16 Aug 2005

Nb Sub (GD) Devi Prasad (JC-349166K), 17 Oct 2005

Nb Sub (GD) Radhe Mohan Thakur (JC-349121K), 10 Aug 2005

Nb Sub (GD) Shelar Suresh Maruti (JC-349152K), 18 Oct 2005

Nb Sub (GD) Krishan Kumar Singh Bhaduria (JC-349168P), 19 Oct 2005

Nb Sub (GD) Rauso Ganapati Bhosale (JC-349176N), 18 Oct 2005

Nb Sub (GD) Kamal Singh (JC-349154P), 22 Sep 2005

Nb Sub (GD) Shinde Narayan Madhav (JC-349150Y), 23 Aug 2005

Nb Sub (GD) Mohammad Ali (JC-349156A), 26 Sep 2005

Nb Sub (GD) Siya Ram (JC-349178Y), 13 Oct 2005

Nb Sub (GD) Ram Singh (JC-349202K), 12 Aug 2005

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Rajbir Yadav (JC-348840W), 05 Oct 2005

Nb Sub (SKT) Mahesh Kumar (JC-348725W), 03 Sep 2005

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Bhupender Singh (No. 1573323K now JC-350129H), 08 Aug 2005

Hav (Clk GD) Hari Kumar K (No. 1573342P now JC-350130X), 03 Oct 2005

Hav (Clk GD) Surjeet Rajput (No. 1573351W now JC-350131A), 21 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Kunwar Singh (No. 1573376H now JC-350134N), 19 Sep 2005

Hav (Clk GD) Anil Kumar Sharma (No. 1573396W now JC-350135W), 07 Oct 2005

Hav (Clk GD) Anil Kumar Sharma (No. 1573400N now JC-350136Y), 22 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Man Singh Chauhan (No. 1573366Y now JC-350146H), 04 Oct 2005

Hav (Clk GD) Radhe Singh (No. 1573428N now JC-350147L), 19 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Amrik Singh (No. 1584465F now JC-350148N), 11 Oct 2005

Hav (Clk GD) Pawan Kishor Sharma (No. 1584640L now JC-350149W), 11 Oct 2005

Hav (Clk GD) Pawar Chandrakant Dadaji (No. 1572394Y now JC-350150L), 03 Nov 2005

Hav (Clk GD) Bhikham Singh (No. 1573294A now JC-350151N), 02 Nov 2005

Hav (Clk GD) Satyapal Singh (No. 1573429W now JC-350152W), 25 Oct 2005

Hav (Clk GD) Suryabhan Singh (No. 1573457H now JC-350153Y), 01 Oct 2005

Hav (Clk GD) Mahabeer Singh (No. 1573509N now JC-350154F), 17 Oct 2005

Hav (Clk GD) Omprakash Kushwaha (No. 1573650P now JC-350155K), 13 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Ishwar Chand (No. 1573852W now JC-350156M), 02 Nov 2005

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Tasdik (No. 1558500A now JC-350132H), 16 Aug 2005

Hav (GD) Dharam Singh (No. 1559744F now JC-350133L), 22 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Darshan Singh (No. 1559902L now JC-350137F), 22 Sep 2005

Hav (GD) Aute Suresh Shripati (No. 1557301F now JC-350138K), 29 Sep 2005

Hav (GD) Jahan Ali (No. 1557809L now JC-350139M), 15 Sep 2005

Hav (GD) Tonde Chandrakant Vithoba (No. 1559205L now JC-350140F), 21 Sep 2005

Hav (GD) Surinderpal Singh (No. 1559250X now JC-350141K), 21 Sep 2005

Hav (GD) Balbir Singh (No. 1559394A now JC-350142M), 21 Sep 2005

Hav (GD) Harmohinder Singh (No. 1569854K now JC-350143P), 20 Sep 2005

Hav (GD) Sukhchain Singh (No. 1569757M now JC-350144X), 02 Oct 2005

Hav (GD) Ganpat Balasahed Mandge (No. 1574587X now JC-350145A), 20 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Kanhaiya Singh (No. 1579735F now JC-350128A), 05 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

## MADRAS ENGINEER GROUP

## To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Vijayan Nair V (JC-225774X), 07 Nov 2005

Sub (GD) Ravi Kumar (JC-305079W), 02 Nov 2005

Sub (GD) John MS (JC-305108A), 02 Nov 2005

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Tomy Mathew (JC-307282L), 01 Sep 2005

Nb Sub (GD) Sam Gomoze O (JC-307284W), 28 Oct 2005

Nb Sub (GD) V Mariadass (JC-307296L), 02 Nov 2005

Nb Sub (GD) A Arokiya Dass (JC-307299Y), 14 Nov 2005

Nb Sub (GD) S Dinakaran (JC-307304Y), 01 Nov 2005

Nb Sub (GD) K Thavaseelan (JC-307306K), 02 Nov 2005

Nb Sub (GD) Mathew KT (JC-307308P), 14 Nov 2005

Nb Sub (GD) K Surya Prakasa Rao (JC-307309X), 01 Nov 2005

Nb Sub (GD) Greesan Nair R (JC-307310M), 01 Nov 2005

Nb Sub (GD) K Jayapal (JC-307311P), 01 Nov 2005

Nb Sub (GD) Babu Rajan A (JC-307323K), 01 Dec 2005

Nb Sub (GD) Prabhakaran PV (JC-307324M), 01 Dec 2005

Nb Sub Krishna Kumar K (JC-307328H), 01 Dec 2005

Nb Sub Radhakrishna Pillai K (JC-307330A), 01 Dec 2005

Nb Sub VM Subramanyam (JC-307338M), 01 Dec 2005

Nb Sub Mathew Varghese (JC-307344A), 01 Dec 2005

## To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) M Govinda Raj (JC-305010M), 08 Oct 2005

Sub (GD) V Sunderesan (JC-305045H), 01 Oct 2005

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) A Velaudhan (JC-307221N), 23 Jun 2005

Nb Sub (GD) Yohannan D (JC-307224F), 29 Jul 2005

Nb Sub (GD) C Lawrence (JC-307246A), 06 Aug 2005

Nb Sub (GD) Azazalam (JC-307281H), 01 Sep 2005

Nb Sub (GD) Thamizhselvan S (JC-307286F), 03 Oct 2005

Nb Sub (GD) Radhakrishnan PP (JC-307289P), 01 Oct 2005

Nb Sub (GD) P Subramanian (JC-307292P), 01 Oct 2005

Nb Sub (GD) V Chandirababu (JC-307293X), 01 Oct 2005

Nb Sub (GD) M Venkatachalam (JC-307294A), 01 Oct 2005

Nb Sub (GD) K Settu (JC-307295H), 26 Oct 2005

Nb Sub (GD) G Mohana Rao (JC-307297N), 24 Oct 2005

Nb Sub (GD) K Rajendran (JC-307298W), 23 Oct 2005

Nb Sub (GD) D Sampath (JC-307300H), 27 Oct 2005

Nb Sub (GD) Rajendran P (JC-307302N), 19 Oct 2005

Nb Sub (GD) R Anandan (JC-307303W), 29 Oct 2005



Nb Sub (GD) Mujeeb Rehman K (JC-307435K), 01 Oct 2005

**BENGAL ENGINEER GROUP**

To be Nb Sub (Religious Teacher)

RRT Sukhwinder Singh (329494W now JC-329494W), 11 Jun 2005

NK Gurmeet Singh (1485246X now JC-329719N), 11 Jun 2005

NK Manjit Singh (1487872A now JC-329720H), 11 Jun 2005

To be Nb Sub (GD)

Hav Suresh Bahadur Singh (1463779A now JC-329690W), 03 Nov 2005@

Hav Jagdish Chandra (1469815M now JC-329691Y), 05 Sep 2005#

Hav Jasbir Singh (1471088H now JC-329692F), 01 Sep 2005#

Hav Kamlesh Kumar Singh (1473264N now JC-329693K), 01 Aug 2005\$

Hav Inderjit Singh (1473311A now JC-329694M), 01 Aug 2005\$

Hav Sukhbir Singh (1487477M now JC-329695P), 02 Sep 2005\*

Hav Yogendra Singh (1467767N now JC-329696X), 02 Sep 2005\*

Hav Kunti Lal (1468872L now JC-329697A), 14 Sep 2005\*

Hav Rajender Singh (1469974N now JC-329698H), 05 Sep 2005\*

Hav Ramesh Prasad Singh (1468446X now JC-329699L), 01 Sep 2005\*

Hav Satnam Singh (1468956Y now JC-329700P), 02 Sep 2005\*

Hav Nagendra Pandey (1471199Y now JC-329701X), 01 Sep 2005\*

Hav Birenda Singh (1471197P now JC-329702A), 01 Sep 2005\*

Hav Satyavir Singh (1471445A now JC-329703H), 07 Sep 2005\*

Hav Ramesh Chander (1470573L now JC-329704L), 01 Sep 2005\*

Hav Mohinder Singh Lunthi (1471650F now JC-329705N), 03 Sep 2005\*

Hav Sunil Kumar Tomar (1471615Y now JC-329706W), 01 Sep 2005\*

Hav Raj Narayan Pandey (1471771N now JC-329707Y), 05 Sep 2005\*

Hav Ramvyas Singh Chauhan (1471779P now JC-329708F), 03 Sep 2005\*

Hav Jagdish Singh Kaphalia (1471879A now JC-329709K), 01 Sep 2005\*

Hav Sushil Kumar Gahlot (1465565H now JC-329710Y), 07 Sep 2005\*

To be Nb Sub Cik (GD)

Hav Nawal Kishor Mishra (1471334H now JC-329711F), 18 Oct 2005\*

Hav Hafizur Rahaman (1471513H now JC-329712K), 03 Oct 2005\*

Hav Chandreshwar Mishra (1471512A now JC-329713M), 29 Sep 2005\*

Hav Dilip Kumar Mishra (1471564W now JC-329714P), 13 Oct 2005%

Hav Golak Chandra Muduli (1464097F now JC-329715X), 13 Oct 2005%

Hav Jamadar Banra (1470989H now JC-329716A), 15 Oct 2005\*

To be Nb Sub (SKT)

Hav Brijesh Tripathi (1483866P now JC-329717H), 29 Aug 2005\$

Hav Padip Kumar Yadav (1483960Y now JC-329718L), 16 Aug 2005\$

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2005 without effect on pay and allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allces).

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Harbhajan Singh (1468931M now JC-329721L), 14 Nov 2005@

Hav Jagmohan Singh (1466745X now JC-329722N), 14 Nov 2005#

Hav Deepak Kumar MV (1472535M now JC-329723W), 14-Nov 2005\$

Hav Surender Singh (1467786N now JC-329724Y), 05 Sep 2005&

Hav Manjur Ansari (1464980X now JC-329725F), 12 Nov 2005\*

Hav Umesh Chandra (1471492X now JC-329726K), 05 Dec 2005\*

Hav Raghubir Singh (1466286K now JC-329727M), 26 Oct 2005\*

Hav Vishav Nath Singh (1471909M now JC-329728P), 24 Nov 2005\*

Hav Ranjit Singh Khati (1468977P now JC-329729X), 28 Oct 2005\*

Hav Shiv Kumar Singh (1470862A now JC-329730M), 21 Nov 2005\*

Hav Chandra Babu K (1470945L now JC-329731P), 12 Nov 2005\*

To be Nb Sub Ck (GD)

Hav Uttam Charan Pal (1471910F now JC-329732X), 17 Nov 2005%

Hav Ramaiya Singh (1471908K now JC-329733A), 12 Nov 2005%

Hav Dharam Vir Singh (1472063H now JC-329734H), 11 Nov 2005%

Hav Ramesh Chandra (1472062A now JC-329735L), 01 Dec 2005\*\*

Hav Satya Narayan (1472065N now JC-329736N), 01 Dec 2005\*\*

Hav Avtar Singh (1472066W now JC-329737W), 01 Dec 2005\*\*

Hav Daya Chand Panwar (1472222P now JC-329738Y), 05 Dec 2005\*\*

Hav Rajendra Singh (1478470F now JC-329739F), 01 Dec 2005\*\*

To be Nb Sub (Svy)

Hav Arvinda Babu BP (9511039H now JC-329740W), 14 Nov 2005\*

Hav MV Narayan (9511286W now JC-329741Y), 18 Nov 2005\*

Hav Akshaya Kumar Padhi (9512041M now JC-329742F), 14 Nov 2005\*

Hav Chandra Shekhar (9512555K now JC-329743K), 14 Nov 2005\*

Hav Shailesh Kumar Pathak (15375795L now JC-329744M), 21 Nov 2005\*

Hav Dongar Singh (1486209W now JC-329745P), 16 Nov 2005\*

Hav Sompal Singh (1490112H now JC-329746X), 14 Nov 2005\*

Hav Rakesh Chaudhary (15384237L now JC-329747A), 17 Nov 2005\*

Hav Pawan Kumar Pandey (6938831K now JC-329748H), 03 Dec 2005\*

Hav Awadesh Kumar (1497418M now JC-329749L), 12 Nov 2005\*

Hav Khim Singh Thaguna (1479577H now JC-329750A), 14 Nov 2005\*

Hav Kanhya Lal Swarankar (15370605K now JC-329751H), 16 Nov 2005\*

Hav Manoj Dobhal (15385373N now JC-329752L), 16 Nov 2005\*

Hav Dakshina Murthi N (6937032P now JC-329753N), 18 Nov 2005\*

Hav Chougule Kishor Pitamber (15393462F now JC-329754W), 16 Nov 2005\*

Hav Gouri Shankar Patra (1587617H now JC-329755Y), 16 Nov 2005\*

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2005 without effect on pay and allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2005 without effect on pay and allces).

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces).

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces).

ROSY SHARMA  
Dy. Secy.

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 136, dated 24th February 2006.—The President is pleased to promote Shri Arup Das, Assistant Executive Engineer to Executive Engineer in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 01 Apr 2005 (Forenoon).

NK KASHMIRA  
Under Secy.

No. 137, dated 28th February 2006.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them:—

## (REGULAR ARMY)

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Roshni Jagdeep Abichandani (MS-13781X)(MR-08101H), AMC—04 Jan 2004

Surendra Kumar Pandey (MS-13689Y)(MR-08195L), AMC—10 Oct 2003

Raghvendra Singh Chittoria (MS-14356Y)(MR-08231L), AMC—26 Feb 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Darin Saka (MR-08202W)(MS-13893X), AMC—16 Jul 2003

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 138, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make the following promotion:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC-58646 Vivek Dabas, AOC

—12 Jun 2005—

AJAY GOEL  
Dy. Dir.  
MS-8C

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL  
QUALITY ASSURANCE

No. 139, dated 24th February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri P Naha, Junior Scientific Officer of OCRI, Nasik Division, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, Korapat wef 24 Jun 2005 (FN).

Shri Rishi Kumar, Junior Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-II in HQ DGAQA, New Delhi wef 25 Jun 2004 (FN).

Shri TS Vasu, Junior Scientific Officer of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI Bangalore wef 29 Jun 2004 (FN).

Shri RV Dixit, Junior Scientific Officer of OCRI, Nasik Division, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, Nasik Division, Ojhar wef 26 Jun 2004 (FN).

Shri Devender Singh, Junior Scientific Officer of OCRI, Nasik Division, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, Ghaziabad wef 12 Jul 2004 (FN).

Shri KC Padhy, Junior Scientific Officer of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI Korwa wef 13 Sep 2004 (FN).

Shri YSR Sharma, Senior Scientific Officer Grade-I of ALISDA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ALISDA, Bangalore w.e.f. 15 Dec 2005 (FN).

Shri V Vijaykumaran, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Korapat as Principal Scientific Officer in OCRI, Korapat w.e.f. 15 Dec 2005 (FN).

Shri KT Thomas, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Bangalore as Principal Scientific Officer in OCRI, Bangalore w.e.f. 16 Dec 2005 (FN).

Shri BN Parameswaran, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Bangalore as Principal Scientific Officer in OCRI, Bangalore w.e.f. 16 Dec 2005 (FN).

Shri PK Kapoor, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Ghaziabad as Principal Scientific Officer in OCRI, Ghaziabad w.e.f. 16 Dec 2005 (FN).

Shri VL Raja, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Bangalore as Principal Scientific Officer in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 29 Dec 2005 (FN).

Shri PS Sailani, Senior Scientific Officer Grade-I of HQ DGAQA, New Delhi as Principal Scientific Officer in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 15 Dec 2005 (FN).

Shri Ranjit Singh, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI, Nasik as Principal Scientific Officer in OCRI, Nasik w.e.f. 16 Dec 2005 (FN).

Shri P Prabhakar Rao, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI (HAL) Hyderabad as Principal Scientific Officer in ALISDA, Bangalore w.e.f. 30 Dec 2005 (FN).

Shri DP Sharma, Senior Scientific Officer Grade-I of HQ DGAQA, New Delhi as Principal Scientific Officer in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 22 Dec 2005 (FN).

Shri AK Bhatte, Senior Scientific Officer Grade-I of OCRI (HAL) Hyderabad as Principal Scientific Officer in ALISDA, Bangalore w.e.f. 30 Dec 2005 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Under Secy.

## (NAVY BRANCH)

No. 140, dated 28th February 2006.—The President is pleased to promote Shri ND Arya, Translation Officer (RE) as Senior Translation officer (RE) w.e.f. 15 Apr 2005.

V. RAJAGOPALAN  
Director of Civilian Personnel

AIR FORCE

No. 141, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

F (P) BRANCH

Wing Commander to be Substantive GP Capt (TS)

BS Daulta (13915), K Singh (13947), R Khanna (14566), MS Mehta (14695), JK Uppal (15018), VK Datta (15193), MM Gadkari (15203), SV Kothare (15208), J Singh (15419), w.e.f. 16 Dec 2004.

RK Dubey (15559), DK Yadav (15562), SA Chakradeo (15568), VBS Mani (15573), w.e.f. 30 Dec 2004.

F (P) BRANCH

Sq Ldr to be Substantive Wing Commander

S Chaturvedi (21720), L Sehgal (21723), SS Rajan (21728), w.e.f. 08 Feb 2005.

V. Singh (21537), w.e.f. 14 Mar 2005.

P Gupta (17349), KS Raina (17371), S Raj (18276), KVR Raju (18573), C Padmanabhan (18583), A Singh (18588), PS Jajmann (18804), SSP Rao (18820), M Raj (18834), LG Singh (18841), VS Malik (18843), SI Kumaran (19159), PS Shah (19202), KD Singh (19527), HA Rather (19863), S Dhankar (19865), SS Sharma (19866), V Mohindra (19867), R Verma (19868), VS Choudhary (19869), S Khanna (19870), LK Chawla (19871), AS Kumar (19872), B Singh (19874), PV Satish (19876), S Biswas (19878), JVS Guron (19879), V Kumra (19881), K Kale (19883), J Singh (19885), AK Chourasia (19886), SM Wahid (19887), SK Jha (19888), EJ Anthony (19892), AK Upadhyay (19893), HS Kulkarni (19894), SK Verma (19895), M Chaudhary (19896), RV Shinde (19897), N Kumar (19898), S Prakash (19899), R Puri (19900), PV Shivanand (19901), SD Rizvi (19902), AR Shendye (19904), SR Roy (19905), P Sen (19907), J Narula (19909), P Bakshi (19911), P Ramesh (19912), A Shetty (19913), RVR Prasad (19914), RK Ithikkat (19915), V Sharma (19916), DA Kulkarni (19917), R Puri (19919), SK Giri (19956), MM Kulkarni (19957), T Singh (19958), AM D'Souza (19959), A Koul (19960), J Verghese (19961), M Kumar (19964), S Mishra (19965), P Joshi (19966), TV Unnikrishnan (19967), S Thinless (19970), S Mehta (19971), V Chaudhary (19972), C Raj (19973), SH Ramsali (19974), KJV Singh (20109), P Kumar (20111), V Samyala (20112), AS Gade (20114), BK Sharma (20115), PK Singh (20116), V Yadav (20117), G Thomas (20118), SK Singh (20119), LV Mandlik (20120), N Talwani (20121), C Subramanian (20122), S Raman (20123), GK Mohan (20124), VK Singh (20126), M Bandhopadhyay (20127), MS Deswal (20131), V Shankar (20132), PAV Ramamurthy (20134), AK Bhowmik (20135), KVS Murthy (20136), S Sridhar (20138), A Chauhan (20139), S Nair (20140), DK Singh (20142), S Sharma (20143), SS Pethkar (20145), S Dang (20146), A Bhatt (20149), M Kapoor (20150), R Ravishankar

(20152), DS Dhillon (20154), SP John (20155), SR Gupta (20156), N Sinha (20157), KS Saini (20159), P Mohan (20160), M Girdhar (20163), D Kumar (20165), SS Sirohi (20166), SV Murugkar (20167), S Tandon (20169), DK Sachan (20170), T Saha (20171), P Bhalla (20173), M Kalim (20175), R Singh (20177), G Girish Kumar (20179), S Bansal (20438), MK Gupta (20439), S Sood (20440), A Singh (20441), SI Siddiqui (20443), T Shankar (20444), PJ Mohamed (20445), M Panging (20446), H Sandhu (20447), ST Chandra Mohan (20448), BCE Sudhakaran (20449), A Janu (20450), M Chandrasekhar (20451), T Chaudhry (20452), VM Reddy (20453), R Dargan (20454), RK Narang (20456), KK Venugopal (20459), R Talwar (20464), S Chauhan (20466), G Sinha (20467), AD Singh (20468), S Lal (20471), HS Nival (20475), R Mohan (20476), HP Singh (20477), PS Nara (20478), M Kumar (20479), A Verma (20480), L Bhatia (20481), N Kamal (20482), AV Jain (20483), CVR Anoop Kumar (20484), SK Ebenezer (20486), VS Dagar (20487), NJ Singh (20488), S Sharma (20489), S Ravuri (20490), JS Mann (20491), RR Varma (20492), V Joshi (20493), SJ Pendse (20495), AK Singh (20496), S Jaisinghani (20497), SK Mathur (20498), N Joshi (20499), PS Dongre (20500), S Malik (20501), NP Kumar (20502), K Lochab (20503), RJ Singh (20504), NS Shokeen (20505), MD Sudhir (20507), V Kumar (20508), NS Pradhan (20509), RY Pingle (20510), V Satyamurthy (20511), S Kaul (20512), P Tomar (20515), VB Tugnait (20516), P Sarkar (20517), V Sharma (20518), P Singh (20520), A Pande (20521), V Kumar (20524), A Subbaramu (20723), T Singh (20724), SC Sharma (20725), A Mathur (20727), AK Gandotra (20730), A Bhadra (20731), A Ludra (20733), R Singh (20735), P Nainwal (20736), B Bhadra (20737), N Saravanan (20738), RDS Hemraj (20739), A Kumar (20740), PS Wadodkar (20741), A Kumar (20742), P Thomas (20743), MS Choudhary (20744), R Bhasin (20745), KS Gill (20746), V Goyal (20747), R Sasan (20748), VS Pundir (20749), KDV Prasad (20750), BK Remala (20751), P Narain (20752), V Mahajan (20753), PP Karde (20754), V Sharma (20757), SK Patel (20760), JS Rana (20761), N Sanguri (20762), AK Singh (20763), K Mathur (20764), K Singh (20765), PS Bajia (20767), KA Cariappa (20771), R Batra (20772), MB Hemraj (20774), CRP Reddy (20775), SM Nijai (20776), VT More (20778), G Rathi (20780), JT Kurien (20782), P Surendran (20783), AK Bhutani (20785), R Agarwal (20786), Omparkash (20789), PK Diddi (20790), SK Naurvi (20791), PY Dethekar (20792), V Sharma (20793), S Srivastava (20796), SK Singh (20797), MK Jha (20798), A Tripathi (20973), P Goel (20974), J Singh (20977), VS Mahida (20981), A Saxena (20983), A Pant (20984), N Sharma (20985), A Gulrajani (20986), R Prem (20987), KD Singh (20989), GKJ Reddy (20990), SK Kashyap (20991), V Choudhary (20992), R Pandey (20994), M Singh (20995), SS Chouhan (20996), KK Shandilya (20998), A Joshi (20999), N Raina (21000), G Kago (21002), RK Nagar (21003), CS Saini (21004), A Bhalla (21006), GS Chauhan (21007), V Gaur (21008), J Yadav (21009), JS Lohokna (21011), AK Gupta (21017), M Nema (21020), SK Saini (21021), A Ranjan (21022), S Mishra (21023), SS Bedi

(21024), SKV Dosi (21025), C Sharda (21026), PA Purohit (21027), NP Singh (21028), R Vishoy (21029), J Singh (21030), A Jyoti (21031), S Bali (21033), N Venkat (21034), R Kumar (21035), T Sharma (21202), M Kumar (21205), N Singh (21206), D Singh (21207), SK Singh (21208), J Soares (21209), A Vij (21211), RS Gill (21212), AK Mandakhot (21214), GP Raja (21216), H Singh (21219), S Sethi (21221), A Bhatia (21222), V Raj (21223), M Yadav (21224), V Nautiyal (21226), MS Grewal (21227), SS Dalal (21228), VR Vishwanathan (21229), V Vittal (21230), SP Singh (21232), D Madhavan (21234), Sameer (21235), N Joshi (21237), V Roy (21239), AK Garg (21240), K Prem Kumar (21241), MA Ismail (21243), S Khajuria (21245), AK Namdeo (21246), JS Rajan (21248), A Srivastava (21250), HTS Meitei (21251), R Ajit (21252), BS Gill (21253), S Ranjan (21254), AK Singh (21255), A Bhambhani (21256), RK Singh (21258), MK Singh (21259), A Kushwaha (21260), R Sekhri (21261), S Batta (21262), AC Sethi (21264), AK Singh (21267), CK Verma (21268), TA Sreenath (21269), PK Sinha (21270), S Bhatele (21273), GS Matharu (21276), D Joseph (21277), GS Kochhar (21278), MK Sharma (21279), GK Jaiswal (21280), JS Jeji (21281), R Joshi (21502), AS Thatee (21504), G Srinivas (21505), R Prakash (21507), D Anand (21508), SS Chhabra (21512), G Gerald (21513), APSingh (21515), Shashikant (21518), HN Gabhare (21519), UG Mahendele (21520), J Singh (21522), VR Sanil (21523), V Kumar (21524), S Prakash (21525), AD Purandare (21526), M Singh (21528), RK Sharma (21530), NJ Singh (21532), MK Yadav (21533), DB Singh (21534), KK Dubey (21536), GP Singh (21538), SK Dandapany (21539), M Dipak (21542), M John (21544), SK Gaur (21546), V Saini (21547), A Tripathy (21548), JK Menon (21550), K Ramesh (21551), SS Kaila (21552), P Chopra (21555), B Yadav (21556), KS Thakur (21557), P Singh (21558), B Naithani (21559), TA Rao (21560), YS Sidhu (21561), AB Sunke (21562), S Kumar (21563), R Chandra (21564), PVS Narayana (21565), AK Sharma (21566), N Jagota (21567), D Hota (21568), R Krishnamurti (21569), SR Singh (21570), Y Marchino (21571), P Raj (21572), S Arya (21574), D Vaswani (21575), HS Gulati (21576), GS Cheema (21577), V Ahluwalia (21578), H Walia (21579) w.e.f. 16 Dec 2004.

#### F (P) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Sehgal (22536), DS Deshpande (23197), SV Munje (23511), M Nair (23725), P Srivastava (23748), SK Naik (23758), PK Chhikara (23974), R Jain (23978), N Garg (23982), R Aneja (23989), S Prabhu (23990), NS Pannu (23996), S Bhandari (24010), (Mrs.) N Chandi (24109), AN Kalurkar (24166), D Sethia (24170), H Yadav (24171), A Dhama (24172), AR Waghmare (24175), J Shetty (24177), SK Gore (24179), M Faisal (24180), GS Sohal (24181), V Rehani (24183), N Bamal (24184), PR Sen (24186), MVLN Rao (24187), M Prakash (24188), R Sangwan (24189), S Sharma (24190), SK Singh (24191), NS Tirkey (24192), S Kumar (24195), P Pandey (24196), RS Bhandari (24198), M Thakur Desai (24200), P Singh (24201), B Singh (24203), K Girme (24205), P Batra (24206), N Sharma (24209), AK

Ahrawat (24210), VS Desai (24213), VS Yadav (24215), K Pandey (24216), APS Hooda (24217), R Abraham (24219), M Shylu (24221), A Bakshi (24222), V Sirohi (24225), AD Bhardwaj (24226), R Bhanjois (24227), V Shukla (24228), MM Singh (24229), M Pandey (24231), R Gakhar (24234), Y Apte (24235), S Pradhan (24236), N Dwivedi (24239), PA Gregory (24240), Rosha (24241), HS Bagga (24242), LS Sandhu (24244), A Prakash (24245), S Vashisht (24321), V Sharma (24475), NC Bhatt (24476), M Rangachari (24477), PP Singh (24478), S Joardar (24479), A Sharma (24480), Y Issar (24482), SS Prabhune (24483), BN Singh (24484), S Grover (24485), PK Lall (24486), CG Deepak (24487), SS Malik (24489), S Malik (24490), A Deep (24491), A Pathania (24492), P Malik (24494), A Khanna (24495), AA Santosh (24497), N Saxena (24498), DV Sreenivas (24499), M Kumaria (24500), M Sreenadh (24501), J Wilfred Samuel (24502), K Sharma (24503), S Sarkar (24504), R Saran (24506), RM Mohan (24508), A Sinha (24509), AP Singh (24510), A Shukla (24511), DS Chawla (24512), KPS Dham (24514), S Sehgal (24515), Chandresekhar (24518), JS Rajpur (24520), SS Pandey (24521), M Chand (24522), J Singh (24523), K Chadha (24524), N Negi (24525), A Sinha (24526), S Gopimohan (24527), NK Dogra (24528), AS Bajwa (24530), S Kushwaha (24532), A Matiman (24533), S Dubey (24535), BP Nene (24536), SD Gaur (24537), RD Singh (24538), NM Arora (24539), (Ms) K Bhalla (24589), (Ms) S Dikshit (24590), M Thapliyal (24885), P Dhawan (24886), N Singh (24887), IJS Hundal (24888), A Midha (24890), S Saravanan (24891), AJ Kolhatkar (24892), S Singh (24894), AV Kulkarni (24896), A Jain (24898), VR Mehta (24899), B Kedar (24901), K Mishra (24902), RN Pawar (24903), T Sharma (24904), R Deshmukh (24905), HS Sandhu (24907), V Tomar (24909), AK Thakur (24911), A Jawrewal (24912), AA Chendke (24913), RKI Chachadi (24914), M Saxena (24915), G Kukreja (24916), HC Bhagat (24917), S Anil (24919), V Singh (24920), DC Tiwari (24921), SA Kurian (24922), S Mitra (24923), TK Singh (24924), G Verma (24928), P Sanjay (24930), MKK Reddy (24931), N Jain (24932), J Singh (24933), AG Dasari (24935), A Kumar (24936), D Dahiya (24937), V Negi (24938), A Arvind (24939), G Sawant (24940), S Tewari (24943), KA Anil (24944), AA Mudbidri (24946), M Talwar (24947), D Sharma (24949), VA Kale (24950), A Srivastava (24952), KN Singh (24953), A Mehta (24956), P Gadiyal (24957), RC Tiwari (24960), (Mrs) Bismi Devassy (25027), PK Dhoreliya (25041), RS Sodhi (25043), P Agnihotri (25059), VS Saini (25060), SS Grewal (25061), SK Kinha (25063), SV Saharan (25065), D Mandal (25066), Y Grewal (25068), S Sharma (25069), GS Sudan (25070), AP Deshpande (25071), R Mahajan (25072), V Bhatia (25073), S Handa (25074), V Mehra (25075), R Mittal (25077), B Paul (25078), PP Misra (25079), R Kapil (25081), JD Masurkar (25082), VT Prakash (25083), N Mishra (25084), Y Kumar (25085), K Hajela (25086), CUV Rao (25087), A Raina (25089), U Sivam

(25090), K Ramji Yadov (25091), D Pant (25092), A Samal (25093), SK Chandan (25094), OHK Reddy (25095), C Jaideep (25097), VK Sharma (25098), PL Garg (25100), D Kumar (25103), AR Mahadik (25104), MV Mudliar (25105), SK Yadav (25106), D Castelino (25107), M Maindargi (25108), M Kalita (25109), A Jain (25110), VP Singh (25111), RS Chambyal (25112), SK Mishra (25113), AA Phansalkar (25114), S Rawat (25115), NK Dubey (25116), A Sreedhar (25117), VK Pandey (25118), M Choudhary (25119), A Bhowmik (25120), D Maitra (25122), B Pathak (25123), SS Viridi (25125), BS Randhawa (25126), R Gautam (25127), PC Pant (25130), R Sharma (25131), P Yadav (25132), A Dave (25134), MK Pandey (25135), A Anish (25136), PP Huddar (25137), S Pol (25138), JP Singh (25139), N Batra (25140), (Ms) Deeptha Chitrapu (25178) w.e.f. 16 Dec 2004.

S Kapoor (24193), K Rama Rao (25286), P Bose (25292), A Rathi (25295), VS Srinivasan (25300), J Kumar (25302), N Agarwal (25303), A Mehra (25306), A Sharma (25310), S Singh (25317), A Pandey (25321), V Abbi (25322), S Siwach (25323), C Nandakishore (25327), PK Singh (25337), R Kumar (25340), A Kumar (25342), TG Singh (25346), PK Nandrajog (25349), BS Dhillon (25350), (Mrs) Nivedita Roy (25401) w.e.f. 19 Dec 2004.

PK Chauhan (25293), JS Chib (25335) w.e.f. 20 Dec 2004.

#### F (P) BRANCH

Fly Offr to be Substantive Flt Lt

KN Tiwari (26722) w.e.f. 09 Mar 2005.

MK Srivastava (26277), D Nautiyal (26278), D Sanyal (26279), P Saurabh (26280), KP Kumar (26281), S Sure (26282), NK Vatsya (26283), A Sarin (26284), SW Alam (26285), A Gupta (26286), M Johar (26288), S Gupta (26289), G Semwal (26290), A Sharma (26291), S Agnihotri (26292), P Tiwari (26293), N Chadha (26294), AS Sachdeva (26295), CS Simon (26296), BS Srinivas (26298), VA Jamkar (26299), R Ahlawat (26300), AP Singh (26301), P Kandpal (26302), R Bhatla (26303), MM Tripathi (26304), V Agarwal (26305), S Balagopal (26306), R Gopinathan (26307), K Nazeer (26308), SA Jakhlu (26309), VV Santhosh (26310), K Goel (26311), P Ojha (26312), S Mitra (26313), LS Charan (26314), B Venugopal (26315), M Chaurasia (26316), S Verma (26317), D Mangaraj (26318), R Khendelwal (26319), VV Takawale (26320), BS Bajwa (26321), BS Bisht (26322), R Tyagi (26323), KC Naithani (26324), A Dey (26325), A Sikka (26326), S Yogesh (26328), M Negi (26329), D Hooda (26330), S Manchanda (26331), K Praveen (26332), (Ms) Mona Sirohi (26364), A Abbott (26511), F Roy (26512), S Dhankar (26513), R Pathania (26514), N Nayal (26515), V Verma (26517), JJ Ovelil (26518), VK Patil (26519), D Gupta (26520), P Saw (26521), B Das (26523), AK Choudhary (26524), K Bharat (26525), S Thangavelu

(26527), VK Kaushal (26528), A Sharma (26529), U Kumar (26530), V Shukla (26532), J Mukherjee (26533), MS Bharath (26534), S Singh (26535), M Keshava Prasad (26536), V Mehta (26538), YC Dahiya (26539), S Singh (26540), G Raturi (26541), H Cheema (26543), V Uniyal (26544), A Sharma (26545), A Singh (26546), U Goja (26548), P Goyal (26551), S Saravanavel (26552), V Bhargava (26553), V Shritriya (26555), C Shekhar (26556), RK Sharma (26559), A Kulkarni (26560), S Shankaram (26561), AS Asthana (26562), N Sabharwal (26627), SS Gehlot (26685), P Antil (26686), K Singh (26687), T Zacharia (26688), M Tolani (26689), S Misra (26690), P Goel (26691), P Agarwal (26693), M Abhiman (26694), N Bundela (26695), H Singh (26696), G Kumar (26697), A Singh (26698), R Kadyan (26699), V Mishra (26700), A Arora (26701), A Dwivedi (26702), A Singh (26703), V Rishi (26704), S Bokil (26706), A Gupta (26707), V Sharma (26708), A Tirkha (26709), D Kumar (26711), PR Ponnappa (26712), S Singh (26713), AK Patnaik (26714), A Sharma (26715), A Singh (26716), A Dubey (26717), R Sharma (26718), AK Jawla (26719), V Singh (26721), YVR Kumar (26723), A Dhiman (26724), V Thiagaraman (26725), A Kathuria (26726), N Talwar (26727), S Sinha (26728), N Mehrotra (26731), AA Sathe (26732), HS Sidhu (26733), A Sharma (26734), A Dhyani (26736), SS Bisht (26737), P Sidharth (26738), A Thakur (26739), AP Lokhande (26740), A Srivastava (26741), G Mukherjee (26742), N Upadhyaya (26743), (Ms) S Kaur (26781), D Sabharwal (26899), S Sukant (26951), S Chintada (26952), M Gera (26953), A Singh (26954), P Jha (26955), D Tomar (26956), A Jhorar (26957), RK Serrao (26958), S Roy (26959), N Chauhan (26960), Y Dhankhar (26961), A Kumar (26962), T Khare (26963), PG Arjariya (26964), P Beniwal (26965).

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

MB Mathew (21992), V Jetly (21994), V Sharma (21997), UD Patkar (22001) w.e.f. 14 August 2005.

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Vivek Sharma (25594), Akhilesh Dinkar Sabnis (25595), Nitin Kumar Mal (25596), Paramjeet Singh Multani (25597), Anil Verma (25598), Nikhil Gupta (25599), Prashant Arora (25600), Vivek Pradeep Naik (25601), M. Goyal (25607), Pranay Kumar (25603), Prem Kumar Garg (25604), Nishit Ohri (25605), Aakash Chopra (25606), Shreyas Lal Chand Mahajan (25607), N Prashanth (25609), Gaurav Bhatnagar (25610), Manoj Kumar (25611), Kumar Nishith Gupta (25613), Arjun Sreedhar (25614), Hemant Kumar (25615), Jagbinder Singh (25616), Nitin Khanna (25617), Nimesh Chaturvedi (25618), Sapam Lenin (25619), Amit Pandey (25620), P Kashyap (25621), Gagan Kohli (25622), Debashish Dey (25623), DS Dahiya (25624), A Thakare (25625), Vivek Agrawal (25626), Manish Assudani (25627), Pankaj Sharma (25628), PS Kushwaha (25629), Mukesh Kumar (25630), Devam Vats (25631), Ranjit Janardanan (25632), Vijay Singh Manth (25633), Abhijit Singh Bali (25634), Neelesh Nipun (25635), Arun Mahadevan (25636),

Sumit Vishwanath Menon (25638), Shiv Kumar (25639), Udayan Kumar (25640), Abhishek Shukla (25642), Umesh Chandra Vaish (25643), R Raman (25644), Ranjeet Kumar (25645), Santosh Babu (25647), Chetan Bajaj (25648), B Kumar (25649), Shashi Kant Sharma (25651), AV Pawar (25652), Trikaldarshi Kumar Singh (25653), S Panigrahy (25654), Vijit Juyal (25655), Mukul Khare (25656), Puneet Singh (25657) w.e.f. 19 Jun 2005.

(Ms) Anita Apte (25689), (Ms) Renu Shekhawat (25690), (Mrs) Saumya Ratha (25691) w.e.f. 19 Jun 2005.

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(Ms) V Sharma (27543) w.e.f. 21 Jun 2005

A Krishnan (27436), M Garg (27437), V Prabhakaran (27439), JS Brar (27440), HV Pandey (27441), S Pachauri (27442), R Kataria (27443), RK Singh (27444), N Jhamb (27445), AK Yadav (27446), KP Singh (27447), S Siwach (27448), A Bawa (27449), V Bhushan (27450), MS Sandhu (27451), S dhankhar (27452), V Dhull (27453), A Thapa (27454), P Santra (27455), RN Mohanty (27456), A Kala (27457), NK Sinha (27458), DK Dhankhar (27459), S Kumar (27460), V Jain (27461), A Agarwal (27462), S Suri (27463), S Jha (27464), M Nautiyal (27465), AK Singh (27466), S Karmakar (27467), A Hakim (27468), P Pant (27469), M Tewari (27470), K Singh (27471), V Upadhyay (27472), S Bhatt (27473), D Hazarika (27474), M Vishal (27475), IWK Jarial (27476), A Patle (27477), V Yadav (27478), GK Verma (27479), TS Negi (27480), PK Sehrawat (27481), SS Barsing (27482), D Joy (27483), D Vats (27484), A Moghe (27485), F Rizvi (27486), A Kohli (27487), AG Yadav (27488) w.e.f. 21 Jun 2005.

VK Gupta (26966), A Bahl (26967), K Suryanarayanan (26968), P Gupta (26969), A Repswal (26971), V Kumar (26972), RS Patil (26973), V Slaria (26974), A Garg (26975), A Rana (26976), S Mann (26977), AV Athavale (26978), S Gupta (26979), GS Ghuman (26980), S Tripathi (26981), PS Chauhan (26982), D Gulati (26983), BS Reddy (26984), J Thomas (26985), A Mehrotra (26986), BK Sahu (26987), HS Bhati (26988), SK Gupta (26989), R Ahuja (26990), R Panwar (26991), S Vashist (26993), HR Bhatt (26994), K Awasthi (26995), M Singh (26996), R Sarmah (26997), R Pandey (26998), P Bobde (26999), R Singh (27001), SS Multani (27002), A Raj (27003), C Garg (27004), R Verma (27005), N Pathak (27006), MK Khan (27008) w.e.f. 16 Dec 2004.

S Gunasekaran (25830), U Govil (25841), R Shukla (25845), J Pothan (25851), SK Ahuja (25852) w.e.f. 18 Dec 2004.

A Dhankhar (27194), P Krishnakanth (27195), R Agarwal (27197), C Arora (27198), P Haldekar (27200), AR Tamta (27202), A Ally (27205), SS Rana (27206), G Sharma (27209), Y Johri (27210), GDK Reddy (27211), RD Jaqtap (27212), G Bhatnagar (27214), SI Khan (27215), BK Dash (27217), R Katoch (27218), N Kumar (27220), S Bhopi (27221), S Sagar (27222), V Manoj (27227), (Ms) Tezi

Uppal (27278), (Ms) Deepika Dadlani (27279) w.e.f. 21 Dec 2004.

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

MS Mehta (14695) w.e.f. 16 December 2004, NS Subhlok (15687), A Bhakoo (15689), SK Chakravarty (15707), KS Sangari (15712), S Singh (15724), P Jacob (15725), KS w.e.f. 15 Jun 2005.

AE (M) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

K Natarajan (16170), IP Sharma (16173), N Sharma (16174), w.e.f. 06 Jul 2005.

AE (L) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

MF Khan (16154), K Nath (16156), AK Pathak (16162), S Kapoor (16163), AK Rai (16175) w.e.f. 06 Jul 2005.

ADM BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

JS Mann (13800) w.e.f. 16 Dec 2004. R Nagarajan (15741), G Saxena (15744), K Shukla (15746), HR Janakiram (15747), H Latif (15749) w.e.f. 15 Jun 2005. RK Verma (14394), K Thakur (14404), MP Singh (14741), GS Dash (15344) w.e.f. 01 Jul 2005.

LGS BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

UK Devnath (15692), AK Mathur (15754), GK Johari (15757), AS Srivastava (15760) w.e.f. 15 Jun 2005.

ACCTS BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

DK Budhiraja (15765), PS James (15767), R Malhotra (15771) w.e.f. 15 Jun 2005.

AE (M) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

SK Agarwal (15967) w.e.f. 05 Jan 2005

AE (L) BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

Suresh Chand (15106), PC Dass (15608), P Kumar (15280) w.e.f. 16 Dec 2004. SV Kumar (15952) w.e.f. 05 Jan 2005.

ADM BRANCH

Wg Cdr to be Substantive Group Captain (Time Scale)

AK Bhatnagar (14724), D Punni (14406), TF Prem Kumar (15244) w.e.f. 16 Dec 2004.

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

V Balasubramanian (21688) w.e.f. 01 Feb 2005. S Manoharan (19470) w.e.f. 16 Dec 2004.

## AE (L) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

SKK Verma (18017), S Sen (17833) w.e.f. 16 Dec 2004.

## ADM BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

HK Bhardwaj (17878) w.e.f. 16 Dec 2004.

## ACCTS BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

V Pinto (19393) w.e.f. 16 Dec 2004.

## F (P) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S Sajan (21807), N Dennis (21808), P Singh (21809), AC Gokhale (21811), R Ranwan (21812), J Banerjee (21813), YJ Joshi (21814), S Tokekar (21815), A Singh (21816), AM Sapre (21817), S Vashishth (21818), VMJ Augustine (21819), P Prakash (21821), P Bhowmik (21823), SK Sharma (21825), SM Bawle (21826), M Tewari (21828), M Sahadev (21830), B Kar (21831), A Gupta (21833), SS Chhabra (21834), J Chakraborty (21835), PK Awasthi (21836), GS Bishen (21837), S Kundu (21838), S arunachalam (21839), AK Dudpuri (21840), J Mitra (21842), MS Bhandari (21843), VS Rana (21844), RRR Reddy (21845), R Puri (21846), R Chaudhry (21847), S Prerak (21849), NS Yadav (21850), M Pahwa (21851), S Kapoor (21853), AG Srinivasan (21854), TS Mattu (21855), S Swamy (21856), G Laxman (21857), AJ Yadav (21859), R Mankotia (21860), B Prakash (21862), S Bhargava (21863), B Ghosh (21865), PP Modak (21866), A Mukerjee (21867), S Kumar (21868), R Narain (21869), BR Augustine (21870), D Bhasker (21872), VN Singh (21874) w.e.f. 13 Jun 2005.

## ADM BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

HS Malhotra (21852) w.e.f. 13 Jun 2005.

## F(N) BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

MK Sinha (21969), MK Ramesh (21970), KB Singh (21971), NM Bhaviyanar (21972), DK Nerkar (21973), BK Chauhan (21974), B Singh (21975), BJ D'Souza (21976), SJ D'souza (21977), B Nagasundaram (21978), G Rambabu (21979), KK Ghosh (21980), L Rajagopal (21981), A Chaudhary (21982), N Saini (21983), AK Singh (21985), A Gupta (21987) w.e.f. 13 Jun 2005.

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

S Awasthi (27489), M Das (27490), D Bhadoria (27491), L Naresh (27492), D Pareek (27493), RK Yadav (27494),

MS Ali (27495), D Bhatia (27496), A Khanna (27497), Y Chaudhary (27498), G Raye (27499) w.e.f. 21 Jun 2005.

## ADM BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

R Thakran (21824), HS Viridi (21861), A Prakash (21871) w.e.f. 13 Jun 2005.

ASMS Ananth (21986) w.e.f. 13 Jun 2005.

## F (N) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Subhash Rathi (25659), Sandipani Patra (25660), GS Kakkar (25661), Saranjeet S Sandhu (25662), Satyajeet R Nambiar (25663), Anubhav Kukreti (25664), Sanjeev Rao (25665), MK Chauhan (25666), Mihir Sudhir Patil (25667), Shashi Kant Sharma (25668), Sunil Kumar Dhiman (25669), Rishi Kala (25670) w.e.f. 19 Jun 2005.

## ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Manuj Sharma (25646), Sachin Mehta (25658) w.e.f. 19 Jun 2005.

## LGS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Solanki MPS (25608) w.e.f. 19 Jun 2005.

S SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO 3(D)

## (ARMY BRANCH)

No. 142, dated 28th February 2006.—The President is pleased to permit the undermentioned Officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 21.10.2002 and to grant him/her permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Surendra Kumar Pandey (MS-13689Y)(MR-08195L), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 10 Oct 1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned Officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 27 Aug 2004 and to grant him/her permanent



Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Lt. Roshni Jagdeep Abichandani (MS-13781X)(MR-08101H), AMC—13 Oct 1999.

(On completion of Internship Training promoted to the rank of Capt w.e.f. 04 Jan 2000). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 01 Dec 2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned Officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 22 Mar 2005 and to grant him/her permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Harish S (MS-14432A)(MR-08236K), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 15 Feb 2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Apr 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Darin Saka (MS-13893X)(MR-08202W), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 16 Jul 1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 08 Sep 2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Bidhan Roy (MS-14350X)(MR-08230H), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 18 Feb 2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Amol Nandkumar Patel (MS-14367L)(MR-08232N), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 07 Mar 2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Oct 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shailendra Singh (MS-14348A)(MR-08227H), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 11 Feb 2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Raghvendra Singh Chittoria (MS-14356Y)(MR-08231L), AMC—26 Feb 2002 with seniority for pay and promotion w.e.f. 26 Feb 1999. (This includes 36 months antedate for Post Graduate Degree[MS(Surgery)] which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 143, dated 22 Feb 2006.—The President is pleased to retire Shri RKM Bhattacharya, Joint Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Dec 2005 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri K K Vijayan, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Dec 2005 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Jaswant Singh, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Jan 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

G. VIJAYARAGHAVAN  
Under Secy.

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGINEERING

No. 144, dated 24th February 2006.—The undermentioned officers are retired from service with effect from the date mentioned against their names:—

Shri Dhodi Ramanlal, EME Officer (Civ)—28 Feb 2005 (Afternoon).

Shri CM Joshi, Chief Draughtsman —31 May 2005 (Afternoon).

Shri BYV Krishna Rao, Chief Draughtsman —31 May 2005 (Afternoon).

Shri Ujjiyar Ram, Assistant Engineer (SG)—30 Jun 2005 (Afternoon).

Shri PK Piplani, Superintending Engineer—30 Sep 2005 (Afternoon).

Shri Viswanathan Kartha C, Private Secretary—31 Oct 2005 (Afternoon).

NK KASHMIRA  
Under Secy.

NAVY BRANCH

INTEGRATED HQ (NAVY)

No. 145, dated 23rd February 2006.—On attaining the age of superannuation, the following Officers of NHQ have retired from Government service from the dates mentioned against their name and transferred to Pension Establishment.

Name, Date of Retirement and Date of transfer to Pension Establishment.

Shri Maman Chand (SO), 31 Aug 2005—01 Sep 2005

Shri Niranjana (PS), 31 Aug 2005—01 Sep 2005

Shri Gopi Nath, (Sr. PPS), 31 Aug 2005—01 Sep 2005

Shri SC Bangia (PS), 30 Nov 2005—01 Dec 2005

Shri JC Sharma (PS), 30 Nov 2005—01 Dec 2005  
 Shri RP Mehra (SO), 30 Nov 2005—01 Dec 2005  
 Shri ML Bansal (SO), 30 Nov 2005—01 Dec 2005  
 Shri NK Ahuja (SO), 31 Dec 2005—01 Jan 2006  
 Shri Gurmail Chand (SO), 31 Dec 2005—01 Jan 2006  
 Shri RK Sharma (Sr. PPS), 31 Dec 2005—01 Jan 2006  
 Shri Rameshwar Prasad, (SO) expired on 04 Dec 2005.

The President is pleased to appoint the following Officers of AFHQ Civil Service as Offg Dy. Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 30.11.2005 to 08. 02.2006, or till regular incumbent

becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier:—

Shri JA Parambil  
 Shri Jawahar Lal  
 Shri Man Singh  
 Shri DV Singh

2. These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
 Dy. Chief Administration Officer (A)